


# अनुक्रमणिका

विषय

पृष्ठ


जीवतत्त्व	...	...	...	...	३
अजीवतत्त्व	...	...	...	...	४
पुरुषतत्त्व	...	...	...	...	१३
पापतत्त्व	...	...	...	...	२९
आस्त्रवतत्त्व	...	...	...	...	३५
संवर्गतत्त्व	..	.	...	...	४०
निर्जरातत्त्व	...	...	...	...	५४
बन्धतत्त्व	...	...	...	...	५८
मात्रतत्त्व	...	..	...	..	६१



কলকাতা-নিবাসী লালা দেবীপ্রসাদ জী জৌহরী।

KALPANI PRESS, AGT

# वल्लभ ।



महानुभावो !

जिन व्यक्तिका फोटो इस पुस्तकमें आप देख रहे हैं काशीके एक प्रसिद्ध जौहरी थे लेकिन विशेष जोबन उन्होंने कलकत्तेमें विताया था, उनको मृत्यु बृद्ध अवस्थामें होनेपर उनकी पत्नी मुन्नी बीबीने इस मण्डलको पुस्तकें छपानेके कार्य में पूर्ण सहायता की थी इस कारणमें उक्त महाशयका फोटो आप इस पुस्तकमें देख रहे हैं ।

इस उत्तम विचारफेलिये मण्डल उनका अति आभारी है । मण्डल जिस तरह हिन्दी जैन साहित्य की सेवा वजा रहा है उसी तरह दानबीरोंकी सेवा भी वजा रहा है । आशा है कि इसारे और दानबीर भी इसी तरह देश कालकी गतिका ध्यान रखते हुये हिन्दो जैन साहित्य प्रचारमें सहायता देकर मण्डलको अपनी उदारताका परिचय देनेकी कृपा करेंगे ।

आगरा रोयन—मुहल्जा }  
ता० १ जनवरी १९२६ }

आपका दास—  
मन्त्री

श्री आत्मानन्दजैनपुस्तकप्रचारकमण्डल



# ❖ नवतत्त्व ❖

हिन्दी-भाषानुवादसहित ।

जीवाजीवा पुरणं,  
 पात्रासवसंवरो य निजरणा ।  
 वधो मुक्खो य तहा,  
 नव तत्त्वा हुंति नायव्वा ॥ १ ॥

जीव, अजीव, पुरण, पाप, आस्त्र, संवर, निर्जरा, चन्द्र और मोक्ष ये नवतत्त्व ज्ञेय हैं अर्थात् इन्हें जानना चाहिये ॥ १ ॥

( १ ) जिसमें ज्ञान हो, उसे जीव कहते हैं । ( २ ) जिसमें ज्ञान नहीं है, उसे अजीव कहते हैं । ( ३ ) जिस कर्म से जीव सुख पाता है, उस कर्म का नाम पुरण है । ( ४ ) जिस कर्म से जीव दुःख पाता है, उस कर्म का नाम पाप है । ( ५ ) आत्मा से सम्बन्ध ( मेल ) करने के लिये जिसके द्वारा पुद्गलद्रव्य आते हैं, उसे आस्त्र कहते हैं । ( ६ ) आत्मा से पुद्गलद्रव्य का सम्बन्ध होना जिसके द्वारा रुक जाय, उसे संवर कहते हैं । ( ७ ) आत्मा से लगे हुए कुछ कर्म, जिसके द्वारा आत्मा से अलग हो जाय, उसे निर्जरा कहते हैं ।

( ८ ) दूध और पानी की तरह आत्मा और पुद्गलद्रव्य का आपस मे मिलना, बन्ध कहलाता है। ( ६ ) सम्पूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग होना, मोक्ष कहलाता है।

ज्ञान और चैतन्य का मतलब एक है तथा जड़ और अजीव का मतलब एक है। इन नवतत्त्वों में से पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ग्रहण करने योग्य हैं; पाप, आस्त्रव और बन्ध का त्याग करना चाहिये। आत्मा जिन पुद्गलद्रव्यों को ग्रहण कर अपने प्रदेशों से मिला लेता है वे पुद्गलद्रव्य, कर्म कहलाते हैं। जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हो, उसको पुद्गल कहते हैं।

“अब जीव आदि तत्त्व के भेद कहते हैं।”

चउद्दस चउद्दस वाया-

लासा वासीञ्च हुंति वायाला ।

सत्तावन्न वारस.

चउ नव भेअा कमेणोर्सि ॥ २ ॥

जीव के चौदह, अजीव के चौदह, पुण्य के वयालीस, पाप के वयासी, आस्त्रव के वयालीस, संवर के सत्तावन, निर्जरा के वारह, बन्ध के चार और मोक्ष के नव भेद हैं ॥ २ ॥

“इस गाथा मे छ प्रकार से जीव का विवेचन है ।”  
 एगाविहं दुविहं तिविहा,  
 चउविहा पंच छाविहा जीवा ।  
 चेयण तस इयरोहि,  
 वेय गइ करण काएहि ॥ ३ ॥

चेतनरूप से जीव एक तरह का है; त्रस और स्थावर-रूप से दो तरह का; स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुन्सकवेद रूप से तांन तरह का; देनगति, मनुष्यगति, तिर्यश्वगति और नरकगति रूपसे चार तरह हैं; एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय और पंचेन्द्रियरूप से पांच तरह का; पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजःकाय, वायुकाय, वनस्पति-काय और त्रसकायरूप से छः तरह का ॥ ३ ॥

सूर्य बादलों से चाहे जितना धिर जाय तो भी उसका प्रकाश कुछ न कुछ ज़रूर बना रहता है इसी तरह कर्मों के गाढ़ आपरण से ढके हुए जीव के ज्ञान का अनन्तवां भाग खुला रहता है; मतलब यह है कि पूर्ण-कर्मवद्दूदशा में भी जीव में कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर बना रहता है; यदि ऐसा न हो, तो जीव और जड़ में कोई फर्क ही न रहेगा ।

सर्दी गरमी आदि से बचने के लिये जो जीव चल

फिर सकें वे 'त्रस' कहलाते हैं, जैसे:—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय आदि। जो जीव शीत उष्ण आदि से अपना बचाव करने के लिये चल फिर न सकें वे 'स्थावर' कहलाते हैं, जैसे:—एकेन्द्रिय जीव, वृक्ष, लता, पृथ्वीकाय, जलकाय आदि।

जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ सम्भोग करने की इच्छा होती है उस कर्म को 'स्त्रीवेद' कहते हैं। जिस कर्म के उदय से स्त्री के साथ सम्भोग करने की इच्छा होती है उस कर्म को 'पुरुषवेद' कहते हैं। जिस कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों के साथ सम्भोग करने की इच्छा होती है उस कर्म को 'नपुन्सकवेद' कहते हैं।

देव, मनुष्य, तिर्यश्च और नरक, ये चार गतियाँ हैं। अनादिकाल से इन गतियों में जीव धूम रहा है, और जब तक सुक्ति नहीं मिलती तबतक वरावर धूमता रहेगा।

एकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिन्हें सिर्फ शरीर हो, जैसे:—पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजःकाय, वायुकाय और वनस्पति-काय के जीव।

द्वीन्द्रिय जीव वे हैं, जिन्हें सिर्फ शरीर और जीभ हो, जैसे:—कंचुआ, जोक, शंख आदि के जीव।

त्रीन्द्रिय जीव वे हैं, जिन्हें सिर्फ शरीर, जीभ

और नाक हो, जैसे:—चींटी, खटमल, जँू, इन्द्रगोप  
( वरसाती लाल रंग के कीड़े ) आदि जीव ।

चतुरिन्द्रिय जीव वे हैं, जिन्हें सिर्फ शरीर, जीभ,  
नाक और आँख हो, जैसे:—विच्छू, भौंरा, मंक्खी,  
मच्छर आदि ।

पञ्चेन्द्रिय जीव वे हैं, जिन्हें शरीर, जीभ, नाक,  
आँख और कान हो, जैसे:—देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ।

काय का मतलब है शरीर, जिनका शरीर सिर्फ  
पृथ्वी का हो, वे पृथ्वीकाय; जिनका शरीर सिर्फ जल  
का हो वे जलकाय ( अपकाय ); जिनका शरीर सिर्फ  
तेज का हो, वे तेजःकाय ( अग्निकाय ); जिनका शरीर  
सिर्फ वायु का हो, वे वायुकाय; शाक, भाजी, फल फूल  
आदि का जिनका शरीर हो, वे वनस्पतिकाय कहलाते हैं ।

पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वन-  
स्पतिकाय और व्रसकाय, इनको 'पञ्जीवनिकाय' कहते हैं ।

"अब जीव के चौदह भेद कहते हैं ।"

एण्डिय सुहुमियरा,

सान्नियर परिण्डिआ य सावितिचउ ।

अपज्ञा पज्ञा,

कञ्जण चउदस जियठाणा ॥ ४ ॥

एकेन्द्रिय जीव के दो भेद हैं, सूक्ष्म और वादर। पञ्चेन्द्रिय के दो भेद हैं, संज्ञी और असंज्ञी (दोनों के मिलाकर चार भेद हुए।) छीन्द्रिय का एक भेद, त्रीन्द्रिय का एक भेद और चतुरिन्द्रिय का एक भेद (ये तीन और पहिले के चार मिलाकर सात हुए) ये सातों प्रथम और अप्रथमरूप से दो प्रकार के हैं। इस तरह जीव के चौदह स्थान-भेद हुए ॥ ४ ॥

सूक्ष्म जीव वे हैं जिनको हम आंख से नहीं देख सकते, न उन्हें अग्नि जला सकती है, न कोई चीज़ उनको उपधात पहुँचा सकती है, न वे किसी को उपधात पहुँचा सकते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों के उपयोग में वे नहीं आते, सारे लोक में वे भरे पड़े हैं।

वादर जीव वे हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, आग उन्हें जला सकती है, मनुष्य आदि प्राणियों के उपयोग में वे आते हैं, उनकी गति में रुकावट होती है, वे सारे लोक में व्याप्त नहीं हैं किन्तु उनके रहने की जगह नियत है।

संज्ञी पञ्चेन्द्रिय वे हैं जिनको पांच इन्द्रियां और मन हो, जैसे:—देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि।

असंज्ञी पञ्चनिद्रिय को पाँचों इन्द्रियां होती हैं पर मन नहीं होता, जैसे:—मछली, मेडक तथा खून, वीर्य, वात, पित्त, कफ आदि के सम्मुच्छिम मनुष्य जीव ।

शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते हैं; जीवसम्बद्ध पुद्गल में एक ऐसी शक्ति है जो आहार को ग्रहण कर उसका रस बनाती है, उस शक्ति का नाम है 'आहारपर्याप्ति' ।

रसरूप परिणाम का खून, मांस, मेद (चर्वी), अस्थि (हड्डी) मज्जा (हड्डीके अन्दर का कोमल पदार्थ) और वीर्य बनाकर शरीर रचना करने वाली शक्ति को 'शरीरपर्याप्ति' कहते हैं ।

सात धातुओं में—रक्त, मांस आदि में परिणत रस से इन्द्रियों के बनाने वाली शक्ति को 'इन्द्रियपर्याप्ति' कहते हैं ।

श्वासोच्छ्वास बनने योग्य पुद्गलद्रव्य को ग्रहण कर उसे श्वासोच्छ्वासरूप में परिणत करने वाली शक्ति को 'श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति' कहते हैं ।

मन बनने योग्य पुद्गलद्रव्य को ग्रहण कर मनोरूप में परिणत करने वाली शक्ति को 'मनःपर्याप्ति' कहते हैं ।

भाषायोग्य पुद्गलद्रव्य को ग्रहण कर भाषारूपमें  
परिणत करने वाली शक्ति को 'भाषापर्याप्ति' कहते हैं।

पदार्थ के स्वरूप को बदलना परिणाम कहलाता है,  
जैसे — दूध का परिणाम दही।

इस तरह आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास,  
भाषा और मन, ये छः पर्याप्तियाँ हैं। इनमें से पहली चार  
पर्याप्तियाँ एकेन्द्रिय जीव को होती हैं। मनःपर्याप्ति को  
छोड़ बाकी को पाँच पर्याप्तियाँ विकलेन्द्रिय तथा असंज्ञी  
पञ्चेन्द्रिय जीव को होती हैं।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीव को  
'विकलेन्द्रिय' कहते हैं। छः पर्याप्तियाँ संज्ञी पञ्चेन्द्रिय  
जीव की होती हैं। पहली तीन पर्याप्तियाँ पूरी किये  
विना क्रोई जीव नहीं मर सकता। जिन जीवों की जितनी  
पर्याप्तियाँ कही गई हैं उन पर्याप्तियों को यदि वे पूरी कर  
नुके हों, तो 'पर्याप्ति' कहलाते हैं; जिन जीवों ने अपनी  
पर्याप्ति पूरी नहीं की, वे 'अपर्याप्ति' कहलाते हैं।

॥ जीवतन्त्र समाप्त ॥

—\*.—

“अब अजीवतत्त्व के चौदह भेद कहते हैं।”

**धर्माधर्मागासा,**

**तियं तियं भेया तहेव अच्छाय ।**

**खंधा देस पएसा,**

**परमाणु अजीव चउदसहा ॥ ५ ॥**

स्कन्ध, देश और प्रदेश रूप से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के तीन तीन भेद हैं, इसलिये तीनों के नव भेद हुए; काल का एक भेद और पुद्गल के चार भेद हैं:—स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु । सब मिलकर अजीव के चौदह भेद हुए ॥५॥

**स्कन्धः—**—चतुर्दशरज्ज्वात्मक लोक में पूर्ण जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय हैं, ये प्रत्येक ‘स्कन्ध’ कहलाते हैं। मिले हुए अनन्तपुद्गलपरमाणुओं के छोटे समूह को ‘स्कन्ध’ कहते हैं ।

**देशः—**—स्कन्ध से कुछ कम, अथवा बुद्धिकल्पित स्कन्धभाग को ‘देश’ कहते हैं ।

**प्रदेशः—**—स्कन्ध से अथवा देश से लगा हुआ अति सूक्ष्म भाग ( जिसका फिर विभाग न हो सके ) ‘प्रदेश’ कहलाता है ।

परमाणुः—स्कन्ध अथवा देश से पृथक्, प्रदेश के समान अतिसूच्म स्वतन्त्र भाग 'परमाणु' कहलाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के परमाणु नहीं होते।

अस्तिकाय—अस्ति का अर्थ है प्रदेश और कायका अर्थ है समूह, प्रदेशोंके समूहको 'अस्तिकाय' कहते हैं।

कालद्रव्यका वर्तमानसमयरूप एक ही प्रदेश है, प्रदेशोंका समूह न होने से आकाशास्तिकाय की तरह 'कालास्तिकाय' नहीं कह सकते।

"इस गाथा में तथा इससे आगे की गाथा में अजीवतत्त्व का स्वरूप विशेषरूपसे कहते हैं।"

धर्माधर्मा पुण्डल,

नह कालो पंच हुंति अजीवा ।

चक्षणसहावो धरभो;

थिरसंटाणो अहर्मो अ ॥ ६ ॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुङ्गलास्तिकाय और काल, ये पांच अंजीव द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय, चलनस्वभाव वाला है अर्थात् जैसे मछलीके चलनेफिरने में जैल सहायक है उसी तरह जीव और पुङ्गल के सञ्चार में—हिलनेडुलने में—धर्मास्तिकाय

सहायक है। अधर्मास्तिकाय, स्थिरस्वभाव वाला है अर्थात् जैसे वृक्षादि की छाया पक्षियों को विश्रान्ति लेने में—ठहरने में—कारण है उसी तरह जीव और पुद्गल को स्थिर रखने में अधर्मास्तिकाय कारण है ॥ ६ ॥

अवगाहो आगासं,

पुगल जीवाणु पुगला चउहा ।  
खंधा देस पएसा,

परमाणु चेव नायव्वा ॥ ७ ॥

अवकाश देना आकाशास्तिकाय का स्वभाव है। जैसे दूध, शक्करको अवकाश देता है उसी तरह आकाशास्तिकाय, जीव और पुद्गलों द्वे अवकाश देता है। पुद्गल के चार भेद ये हैं; “स्फून्ध, देश, प्रदेश और परमाणु” ॥ ७ ॥

आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश।

जितने आकाशदेश में जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल व्याप्त हैं, वह लोकाकाश कहलाता है, और उससे जुदा अलोकाकाश।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द; ये सिर्फ़ पुद्लास्तिकाय में रहते हैं, धर्मास्तिकाय आदिमे नहीं।

---

“अब दो गाथाओंसे कालद्रव्यका स्वरूप कहते हैं ।”  
**एगा कोडी सतसटि,**  
 लक्खा सतहुत्तरी सहस्राय ।  
**दो य सया सोलहिया.**  
 आवलिया इगमुहुत्तमि ॥ ८ ॥

**समयावली मुहुत्ता,**  
 दीहा पक्खा य मास वरिहा य ।  
**भणिओ पलिअा सागर,**  
 उहसधिणो क्ष पदणी कालो ॥ ९ ॥

एक क्रोड़, सड़सठ लाख, सतहत्तर हज़ार, दो सौ सोलह ( १६७७७२१६ ) आवलिकाओं का एक ‘मुहूर्त’ होता है ॥ ८ ॥

असंख्य समयों की एक ‘आवलिका’ होती है ।

जिसका विभाग न हो सके ऐसे अतिसूक्ष्म कालको ‘समय’ कहते हैं । तीस मुहूर्तों का अहोरात्ररूप एक ‘दिन’ होता है । पन्द्रह दिनों का एक ‘पक्ष’ । दो पक्षों

का एक 'मास' । बारह महीनों का एक 'वर्ष' । असंख्य वर्षोंका एक 'पल्योपम' । दस क्रोड़ाक्रोड़ी पल्योपम का एक 'सागरोपम' । दस क्रोड़ाक्रोड़ी सागरोपम की एक 'उत्सर्पिणी' । दूसरे दस क्रोड़ाक्रोड़ी सागरोपम की एक 'अवसर्पिणी' ॥ ६ ॥

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी मिलकर एक 'कालचक्र' होता है । ऐसे अनन्त कालचक्र वीतने पर एक 'पुद्गल-परावत' होता है । क्रोडाक्रोड़ी—क्रोडको क्रोड से गुणने पर जो संख्या होती है उसे 'क्रोडाक्रोड़ी' कहते हैं ।

## पुण्यतत्त्व ।

सा उच्चगोत्र मणुदुग,

सुरदुग पञ्चेदिजाइ पण्डेहा ।

आइतितणूणुवंगा,

आइससंघणसंठाणा ॥ १० ॥

"इस गाथामें तथा आगे को दो गाथाओं से पुण्य तत्त्व के व्यालोस भेद कहे गये हैं ।"

सातावेदनीय, उच्चगोत्र, मनुज्यगति, भनुष्यानुपूर्वी, देवगति, देवानुपूर्वी, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर कार्मण

शरीर, प्रथम के तीन शरीरों के अंग, उपांग और अंगोपांग, आदि संहनन और आदि संस्थान ॥ १० ॥

( १ ) जिस कर्म से जीव सुखका अनुभव करे, उसे 'सातावेदनीय' कहते हैं ।

( २ ) जिस कर्म से जीव उच्चकुल में पैदा हो, उसे 'उच्चैर्गोत्र' कहते हैं ।

( ३ ) जिस कर्म से जीव को मनुष्यगति मिले, उसे 'मनुष्यगति' कहते हैं ।

( ४ ) जिस कर्म से मनुष्य की आनुपूर्वी मिले, उसे 'मनुष्यानुपूर्वी' कहते हैं ।

आनुपूर्वी का गतलब यह है कि विग्रहगतिसे गत्यन्तर में जाने वाला जीव जब शरीर छोड़कर समश्रेणि से जाने लगता है तब आनुपूर्वी कर्म उस जीव को जवरदस्ती से, जहाँ पैदा होना हो, वहाँ पहुँचा देता है। मनुष्यगति कर्म और मनुष्यानुपूर्वीकर्म, दोनों को 'मनुष्यष्टिक' संज्ञा है ।

( ५ ) जिस कर्म से जीव को देवगति मिले, उसे 'देवगति' कहते हैं ।

( ६ ) जिस कर्म से जीव को देवता को आनुपूर्वी प्राप्त हो, उसे देवानुपूर्वी कहते हैं ।

( ७ ) जिस कर्मसे जीवको पाँचों इन्दियां मिलें, उसे 'पञ्चेन्द्रियजातिकर्म' कहते हैं ।

( ८ ) जिस कर्म से जीव को औदारिक शरीर मिले उसे 'औदारिककर्म' कहते हैं ।

उदार अर्थात् बड़े बड़े अथवा तीर्थकरादि उत्तम पुरुषों की अपेक्षा उदार-प्रधान पुद्गतों से जो शरीर बनता है उसे 'औदारिक' कहते हैं । मनुष्य, पशु पक्षी आदि का शरीर औदारिक कहलाता है ।

( ९ ) जिस कर्म से वैक्रियशरीर मिले उसे 'वैक्रियकर्म' कहते हैं ।

अनेक प्रकार की क्रियाओं से बना हुआ शरीर, 'वैक्रिय' कहलाता है । उसके दो मैद हैं; औपपातिक और लब्धिजन्य । देवता और नरकनिवासी जीवों का शरीर 'औपपातिक' कहलाता है ।

लब्धि अर्थात् सामर्थ्यविशेष प्राप्त होने पर तिर्यक्ष और मनुष्य भी कभी कभी वैक्रिय शरीर धारण करते हैं, वह 'लब्धिजन्य' है ।

( १० ) जिस कर्म से आहारक शरीर की प्राप्ति हो उसे 'आहारक' कर्म कहते हैं । दूसरे द्वीप में विद्यमान तीर्थकर से अपना सन्देह दूर करने के लिये या उनका

ऐश्वर्य देखने के लिये चौदह पूर्वधारी मुनिराज चाहते हैं। तब निजशक्ति से एक हाथ प्रमाण, चर्मचक्रु के अद्वय, अति सुन्दर शरीर बनाते हैं, उस शरीर को 'आहारक-शरीर' कहते हैं।

( ११ ) जिस कर्म से तैजस शरीर की प्राप्ति हो, उसे 'तैजस' कर्म कहते हैं।

किये हुये आहार का पका कर रस, रक्त आदि बनाने वाला तथा तपोवल से तेजोलेश्या निकालने वाला शरीर, 'तैजस' कहलाता है।

( १२ ) जीवों के साथ लगे हुये आठ प्रकार के कर्मों का विकाररूप तथा सब शरीरों का कारणरूप, 'कार्मण' शरीर कहलाता है।

तैजस शरीर और कार्मण शरीरका अनादिकाल से जीव के साथ सम्बन्ध है और सोक पाये विना उनके साथ वियोग नहीं होता।

( १३ ) अंग, उपांग और अंगोपांग, जिन कर्मों से मिलें, उनको 'अंग' कर्म, 'उपांग' कर्म और 'अंगोपांग' कर्म कहते हैं।

जानु, भुजा, मस्तक, पीठ आदि अंग हैं, अंगुली वगैरह उपांग और अंगुलीके पर्व, रेखा आदि 'अंगोपांग' कहलाते हैं।

ओदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरको अङ्ग, उपाङ्ग आदि होते हैं लेकिन तैजस और कार्मण शरीर को नहीं।

(१६) प्रथम संहनन—‘वज्रऋषभनाराच’—जिस कर्मसे मिले, उसे ‘वज्रऋषभनाराच’ नामकर्म कहते हैं।

हड्डियोंकी रचनाको ‘संहनन’ कहते हैं।

दो हाथोंका मर्कट बन्ध होनेपर एक पट्टा (वेठन) दोनोंपर लपेट दिया जाय फिर तीनोंपर खीला ठोका जाय, इस तरहकी मजबूत हड्डियोंकी रचनाको ‘वज्र-ऋषभनाराच’ कहते हैं।

(१७) प्रथम संस्थान—‘समचतुरस्त’ जिस कर्मसे मिले, उसे ‘समचतुरस्त’ संस्थान नामकर्म कहते हैं।

पालथी मारकर वैठनेसे दोनों जानु और दोनों कन्धों का इसी तरह वायें जानु और दहिने कन्धे का तथा दक्षिण जानु और वामस्कन्धका अन्तर समान हो, तो उस संस्थानको ‘समचतुरस्त’ संस्थान कहते हैं। जिनेश्वर भगवान् तथा देवताओंका यही संस्थान है।

वरण चउक्का गुह्लहु.

परधा ऊसास आयुजोञ्चं ।

सुभखगइ निमिण तसदस,  
सुर-नर-तिरिआउ तित्थयरं ॥ १९ ॥

वर्णचतुष्क (वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श), अगुरुलघु, पराधात, श्वासोच्छ्वास आतप, उद्योत, शुभविहायोगति, निर्माण, त्रसदशक, सुरायुष्य, मनुष्यायुष्य, तियन्नायुष्य और तीर्थङ्कर नामकर्म ॥ ११ ॥

(१८-२१) जिन कर्मोंसे जीवका शरीर, शुभवर्ण, शुभगन्ध, शुभरस और शुभस्पर्शवाला हो, उन कर्मोंको भी 'शुभस्पर्श' नामकर्म कहते हैं।

लाल, पीला और सफेद रंग, शुभ वर्ण कहलाता है। सुगन्ध-खुशबूको शुभगन्ध कहते हैं। खड़ा, मीठा और कस्तैला रस, शुभ रस कहलाता है। लघु, मृदु (कोमल), उप्षण और स्निग्ध (चिकने) स्पर्शको शुभ स्पर्श कहते हैं।

(२२) जिस कर्मसे जीवका शरीर न लोहे जैसा भारी हो, न आँक की कपास जैसा हलका हो किन्तु मध्यम हो, उसे 'अगुरुलघु' नामकर्म कहते हैं।

(२३) जिस कर्मसे जीव, बलवानोंसे भी पराजित न हो, उसे 'पराधात' नामकर्म कहते हैं।

(२४) जिस कर्मसे जीव श्वासोच्छ्रवास ले सके उसे, 'श्वासोच्छ्रवास' नामकर्म कहते हैं।

(२५) जिस कर्मसे जीवका शरीर, उष्ण न होकर भी उष्ण प्रकाश करे उसे, 'आतप' नामकर्म कहते हैं। सूर्यमण्डलमें रहनेवाले पृथ्वीकाय जीवोंका शरीर ऐसा ही है।

(२६) जिस कर्मसे जीवका शरीर शीतल प्रकाश करनेवाला हो, उसे 'उद्योत' नामकर्म कहते हैं। ऐसे जीव, चन्द्रमण्डल और ज्योतिश्चक्रमें होते हैं। वैक्रिय लविष्वसे सातु, वैक्रिय शरीर धारण करते हैं, उस शरीरका प्रकाश शीतल होता है, वह इस 'उद्योत' नामकर्मसे समझना चाहिये।

(२७) जिस कर्मसे जीव हाथी, हंस, बैल जैसी चाल चले, उसे 'शुभविहायोगति' नामकर्म कहते हैं।

(२८) जिस कर्मसे जीवके शरीरके अवयव, नियत-स्थानमें व्यवस्थित हों उसे 'निर्माण' नामकर्म कहते हैं।

जैसे कारीगर, मूर्तिमें यथायोग्य स्थानोंमें अवयवोंको बनाता है वैसे ही 'निर्माण' नामकर्म भी अवयवोंको व्यवस्थित करता है।

(२६-३८) त्रसदशकका विचार आगेकी गाथामें कहा जायगा ।

(३८-४१) जिन कर्मोंसे जीव देव, मनुष्य और तिर्यञ्चकी योनिमें जीता है, उनको क्रमसे 'देवायु', 'मनुष्यायु' और 'तिर्यञ्चायु' नामकर्म कहते हैं ।

(४२) जिस कर्मसे जीव, चौतीस अतिशयोंसे युक्त हो कर त्रिभुवनका पूजनीय होता है, उसे 'तीर्थङ्कर' नामकर्म कहते हैं ।

—\*—

तस बायर पञ्जत्तं,

पत्तेऽथ थिरं सुभं च सुभगं च ।

सुस्सर आइज्ज जसं,

तसाइदसगं इमं होइ ॥ १२ ॥

"इस गाथामें त्रसदशकका वर्णन है"

(१) जिस कर्मसे जीवको 'त्रस' शरीर मिले उसे 'त्रस' नामकर्म कहते हैं । त्रस जीव वे हैं, जो धूपसे व्याकुल होनेपर छायामे और शीतसे दुखी होनेपर धूपमें जा सकें । द्वीन्द्रियादि जीव त्रस कहलाते हैं ।

(२) जिस कर्मसे जीवका शरीर या शरीर-समुदाय देखनेमें आसके इतना स्थूल हो, उसे 'बादर' नामकर्म कहते हैं ।

(३) जिसके उदयसे जीव अपनी पर्याप्तियोंसे युक्त हो, उसे 'पर्याप्त' नामकर्म कहते हैं ।

(४) जिस कर्मसे एक शरीरमें एक ही जीव स्वामी रहे, उसे 'प्रत्येक' नामकर्म कहते हैं ।

(५) जिस कर्मसे जीवके दौत, हड्डी आदि अवयव मजबूत हों, उसे 'स्थिर' नामकर्म कहते हैं ॥

(६) जिस कर्मसे जीवकी नाभिके ऊपरका भाग शुभ हो, उसे 'शुभ' नामकर्म कहते हैं ।

(७) जिस कर्मसे जीव, सबका प्रियपात्र हो, उसे 'सौभाग्य' नामकर्म कहते हैं ।

(८) जिस कर्मसे जीवका स्वर [ आवाज ] कोणतीज की तरह मधुर हो, उसे 'सुस्वर' नामकर्म कहते हैं ।

(९) जिस कर्मसे जीवका वचन लोगोंमें आदरणीय हो, उसे 'आदेय' नामकर्म कहते हैं ।

(१०) जिस कर्मसे लोगोंमें यश और कीर्ति फैले, उसे 'यशःकीर्ति' नामकर्म कहते हैं ॥ १२ ॥

## पापतत्त्व ।

नारणंतरायदसगं,

नव वीए नीअ॒साय मिच्छत्तं ।

## थावरदस नरयतिंग

### कसायपण्वीस तिरियदुग्ं ॥ १३ ॥

“इस गाथामें तथा आगेकी दो गाथाओंमें पापतत्त्वके वयासा भेद कहे जात हैं।”

ज्ञानावरणीयके पाँच भेद और अन्तरायके पाँच भेद मिलाकर दस भेद;—१ मतिज्ञानावरणीय, २ श्रुत-ज्ञानावरणीय, ३ अवधिज्ञानावरणीय, ४ मनःपर्यवज्ञानावरणीय, ५ केवलज्ञानावरणीय; ६ दानान्तराय, ७ लाभान्तराय, ८ भोगान्तराय, ९ उपभोगान्तराय, १० वीर्यान्तराय; दर्शनावरणीय कर्मके नव भेद—११ चक्षुर्दर्शनावरणीय, १२ अचक्षुर्दर्शनावरणीय, १३ अवधिदर्शनावरणीय, १४ केवलदर्शनावरणीय, १५ निद्रा, १६ निद्रानिद्रा, १७ प्रचला, १८ प्रचलाप्रचला, १९ स्त्यानर्दि, २० नीचैर्गोत्रि, २१ असातावेदनीय, २२ मिथ्यात्वमाहनीय; स्थावरदशक—२३ स्थावर, २४ सूक्ष्म, २५ अपर्याप्ति, २६ साधारण, २७ अस्थिर, २८ अशुभ, २९ दुर्भाग, ३० दुःखर, ३१ अनादेय और ३२ अयशःकीर्ति; नरकत्रिक—३३ नरकायु, ३४ नरकगति और ३५ नरकानुपूर्वी; पच्चीस कपाय—३६ अनन्तानुवन्धी क्रोध, ३७ अ० मान, ३८ अ० माया, ३९ अ० लोभ; ४० अग्रत्याख्यान क्रोध, ४१ अ० मान, ४२

अप्र० माया, ४३ अप्र० लोभ; ४४ प्रत्याख्यान क्रोध,  
 ४५ प्र० मान, ४६ प्र० माया, ४७ प्र० लोभ; ४८  
 संज्वलनक्रोध, ४९ सं० मान, ५० सं० माया, ५१ सं०  
 लोभ; ५२ हास्य, ५३ रति, ५४ अरति, ५५ शोक,  
 ५६ भय, ५७ जुगुप्सा, ५८ स्त्रीवेद, ५९ पुरुषवेद, ६०  
 नपुन्सकवेद, तिर्यङ्गद्विक;—६१ तिर्यङ्गगति और ६२  
 तिर्यङ्गानुपूर्वी ॥ १३ ॥

(१) मन और पाँच इन्द्रियोंके सम्बन्धसे जीवको  
 जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं, उस ज्ञानका  
 आवरण अर्थात् आच्छादन, 'मतिज्ञानावरणीय' पापकर्म  
 कहलाता है।

(२) शास्त्रको 'द्रव्यश्रुत' कहते हैं और उसके सुनने  
 या पढ़नेसे जो ज्ञान होता है उसे 'भावश्रुत' कहते हैं;  
 उसका आवरण, 'श्रुतज्ञानावरणीय' पापकर्म कहलाता है।

(३) अतीनिद्रिय अर्थात् इन्द्रियोंके चिना आत्माको  
 रूपी द्रव्यका जो ज्ञान होता है, उसे अवधिज्ञान कहते  
 हैं, उसका आवरण, 'अवधिज्ञानावरणीय' पापकर्म  
 कहलाता है।

(४) संज्ञी पञ्चेन्द्रियके मन की बात जिस ज्ञानसे  
 मालूम होती है, उसे मनःपर्यविज्ञान कहते हैं, उसका  
 आवरण, 'मनःपर्यवज्ञानावरणीय' पापकर्म कहलाता है।

(५) सारे संसारका पूरा ज्ञान जिससे होता है उसे केवलज्ञान कहते हैं, उसका आवरण, 'केवलज्ञानावरणीय' पापकर्म कहलाता है।

(६) दानसे लाभ होता है, उसे जानता हो, पासमें धन हो, सुपात्र भी मिल जावे, लेकिन दान न कर सके, इसका कारण, 'दानान्तराय' पापकर्म है।

(७) दान देनेवाला उदार है, उसके पास दानकी चीज़ों भी मौजूद हैं, लेनेवाला भी हुशियार है, तो भी मांगी हुई चीज़ न मिले, इसका कारण, 'लाभान्तराय' पापकर्म है।

(८) भोग्य चीज़ों मौजूद हैं, भोगनेकी शक्ति भी है लेकिन नहीं भोग सके, उसका कारण, 'भोगान्तराय' पापकर्म है।

(९) उपभोग्य चीज़ों मौजूद हैं, उपभोग करनेकी शक्ति भी है लेकिन उपभोग नहीं ले सके, उसका कारण 'उपभोगान्तराय' पापकर्म है।

जो चीज़ एकवार भोगनेमें आवे वह भोग्य; जैसे— पुष्प, फल, भोजन आदि। जो पदार्थ वारवार भोगनेमें आवे उसे उपभोग्य कहते हैं, जैसे—स्त्री, वस्त्र, आभरण आदि।

(१०) रोगरहित युवावस्था रहते और सामर्थ्य रहते हुये भी अपनी शक्तिका विकास न कर सके, उसका कारण, 'धीर्यान्तराय' पापकर्म है।

(११) आँखसे पदार्थोंका जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे 'चक्षुर्दर्शन' कहते हैं, उसका आवरण, 'चक्षुर्दर्शनावरणीय' पापकर्म कहलाता है।

(१२) कान, नाक, जीभ, त्वचा तथा मनके सम्बन्ध से शब्द, गन्ध, रस और स्पर्शका जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे 'अचक्षुर्दर्शन' कहते हैं, उसका आवरण, 'अचक्षुर्दर्शनावरणीय' पापकर्म कहलाता है।

(१३) इन्द्रियोंके विना रूपी द्रव्यका जो सामान्य घोथ होता है उसे 'अवधिदर्शन' कहते हैं, उसका आवरण, 'अवधिदर्शनावरणीय' पापकर्म कहलाता है।

(१४) संसारके सम्पूर्ण पदार्थोंका जो सामान्य अबघोथ होता है, उसे 'केवलदर्शन' कहते हैं, उसका आवरण 'केवलदर्शनावरणीय' पापकर्म कहलाता है।

(१५) जो सोया हुआ आदमी ज़रासी खटखटाहटसे या आवाज़से जाग जाता है। उसकी नींदको निद्रा कहते हैं, जिस कर्मसे ऐसी नींद आवे उस कर्मका भी नाम 'निद्रा' है।

(१६) जो आदमी, घड़े ज़ोरसे चिल्लाने या हाथसे ज़ोरसे हिलानेपर वही मुश्किलसे जागता है, उसकी नींदको निद्रानिद्रा कहते हैं, जिस कर्मसे ऐसी नींद आवे उस कर्मका भी नाम ‘निद्रानिद्रा’ है।

(१७) खड़े खड़े या बैठे बैठे जिसको नींद आती है, उसकी नींदको प्रचला कहते हैं, जिस कर्मसे ऐसी नींद आवे, उस कर्मका भी नाम ‘प्रचला’ है।

(१८) चलते फिरते जिसको नींद आती है, उसकी नींदको प्रचलाप्रचला कहते हैं, जिस कर्मसे ऐसी नींद आवे, उसका भी नाम ‘प्रचलाप्रचला’ है।

(१९) दिनमें सोचे हुये कामको रातमें नींदकी हालतमें जो कर डालता है, उसकी नींदको ‘स्त्यानद्विं’ कहते हैं, जिस कर्मसे ऐसी नींद आवे, उस कर्मको भी ‘स्त्यानद्विं’ कहते हैं।

स्त्यानद्विंकी हालतमें वज्रऋषभनाराचसंहननवाले जीवको वासुदेवका आधा बल होता है।

(२०) जिस कर्मसे नीच कुलमें जन्म हो, उसे ‘नीचैगोत्र’ पापकर्म कहते हैं।

(२१) जिस कर्मसे जीव, दुःखका अनुभव करे, उसे 'असातावेदनीय' पापकर्म कहते हैं।

(२२) जिस कर्मसे मिथ्यात्वकी प्राप्ति हो उसे 'मिथ्यात्वमोहनीय' पापकर्म कहते हैं।

मिथ्यात्वका लक्षण यह है, 'अदेवे देवबुद्धिर्या, गुरुधीरगुरौ च या । अधर्मे धर्मबुद्धिश्च, मिथ्यात्वं तन्निं-  
गद्यते ॥' देवताके गुण जिसमें न हों उसे देव समझना,  
गुरुके गुण जिसमें न हों उसे गुरु मानना और अधर्मको  
धर्म समझना, यह मिथ्यात्व है।

(२३-३२) स्थावरदशकका वर्णन आगेकी गाथामें  
आवेगा।

(३३) जिस कर्मसे जीव नरकमें जाता है, उसे  
'नरकगति' पापकर्म कहते हैं।

(३४) जिस कर्मसे जीव नरकमें जीता है, उसे  
'नरकायु' पापकर्म कहते हैं।

(३५) जिस कर्मसे जीवको जवरदस्ती नरकमें जाना  
पड़े, उसे 'नरकानुपूर्वी' पापकर्म कहते हैं।

(३६-३६) जिस कर्मसे जीवको अनन्तकाल तक  
संसारमें घूमना पड़ता है, उसे 'अनन्तानुवन्धी' पापकर्म

कहते हैं। इसके चार भेद हैं; अनन्तानुवन्धी क्रोध, अनन्तानुवन्धी मान, अन० माया और अन० लोभ। जबतक जीव जीता है तबतक प्रायः बने रहते हैं और अन्तमें प्रायः नरकगति प्राप्त होती है।

(४०-४३) जिस कर्मसे जीवको देशविरतिरूप प्रत्याख्यानकी प्राप्ति न हो, उसे 'अप्रत्याख्यान' पापकर्म कहते हैं। इसके भी चार भेद हैं; अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अ० माया और अ० लोभ। इनकी स्थिति एक वर्षकी है, इनके उदयसे अणुव्रत धारण करने की इच्छा नहीं होती और मरने पर प्रायः 'तिर्यञ्चगति' मिलती है।

(४४-४७) जिसके उदयसे सर्वविरतिरूप प्रत्याख्यान की प्राप्ति न हो, उसे 'प्रत्याख्यान' पापकर्म कहते हैं।

इसके चार नेद हैं:—प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान मान, प्र० माया और प्र० लोभ। इनकी स्थिति चार महीनेकी है; ये पापकर्म, सर्वविरतिरूप चारित्रके प्रतिवन्धक हैं और मृत्यु होने पर प्रायः मनुष्यगति मिलती है।

(४८-५१) जिस कर्मसे यथाख्यातचारित्रकी प्राप्ति न हो, उसे 'सञ्जलन' पापकर्म कहते हैं।

इसके भी चार भेद हैं; सञ्ज्ञलन क्रोध, सं० मान, सं० माया और स० लोभ । इनकी स्थिति पंद्रह दिनों की है और मृत्यु होने पर देवगति प्राप्त होती है ।

(५२) जिस कर्मसे, विनाकारण या कारणवश हँसी आवे, उसे 'हास्यमोहनीय' पापकर्म कहते हैं ।

(५३) जिस कर्मसे अच्छे अच्छे पदार्थोंमें अनुराग सो, उसे 'रतिमोहनीय' पापकर्म कहते हैं ।

(५४) जिस कर्मसे, बुरी चीजोंसे नफरत हो, उसे 'अरतिमोहनीय' पापकर्म कहते हैं ।

(५५) जिस कर्मसे इष्ट वस्तुका वियोग होने पर शोक हो, उसे 'शोकमोहनीय' पापकर्म कहते हैं ।

(५६) जिस कर्मसे, विनाकारण या कारणवश दिलमें भय हो, उसे 'भयमोहनीय' पापकर्म कहते हैं ।

(५७) जिस कर्मसे दुर्गन्धी या वीभत्स पदार्थों को देखकर घृणा हो, उसे 'जुगुप्सामोहनीय' पापकर्म कहते हैं ।

(५८-६०) स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुन्सकवेदका मतलब पहले लिखा जा चुका है ।

(६१) जिह कर्मसे तिर्यञ्चगति मिले, उसे 'तिर्यञ्चगति'  
पापकर्म कहते हैं ।

(६२) जिस कर्मसे जीवको जवरदस्तो तिर्यञ्चगतिमें  
जाना पड़े, उसे 'तिर्यञ्चानुपूर्वी' पापकर्म कहते हैं ।

इग-वि-ति-चउजाईओ,

कुखगड उवधाय हुंति पावस्स !  
अपसत्थं वरणचउ,

अपढमसंघयण-संठाणा ॥ १४ ॥

एकेन्द्रिय, द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय  
जातिकर्म, अशुभविहायोगति नामकर्म, उपधातकर्म,  
अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस और सर्पण, अप्रथम संहनन  
अर्थात् ऋषभनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कोलिका  
और सेवा । संहनन, अप्रथम संम्धान अर्थात् न्यग्रोध,  
सादि, कुब्ज, वामन और हुंड संस्थान । ये वयासी भेद  
पापतत्त्वके हैं ॥ १४ ॥

(६३) जिस कर्मसे जीवको एकेन्द्रिय जाति मिले,  
उसे 'एकेन्द्रियजाति' पापकर्म कहते हैं इसी प्रकारः—

(६४) द्वीन्द्रिय, (६५) त्रीन्द्रिय, और (६६) चतुर्निंद्रियजाति पापकर्मोंका समझना चाहिये ।

(६७) जिस क्रमसे जीव, ऊँट या गधे जैसा चले, उसे 'अशुभविहायोगति' पापकर्म कहते हैं ।

(६८) जिस क्रमसे जीव अपने ही अवयवों से दुखी हो, उसे 'उपधात' पापकर्म कहते हैं । वे अवयव प्रतिजिह्वा [ पड़जीभ ], कण्ठमाला, छठी अँगली आदि हैं ।

(६९-७२) जिन कर्मोंसे जीवका शरीर अशुभ वर्ण, अशुभ रस और अशुभ स्पर्श वाला हो, उनको क्रमसे 'अप्रशस्तवर्ण', 'अप्रशस्तगन्ध', 'अप्रशस्तरस' और 'अप्रशस्तस्पर्श' पापकर्म कहते हैं ।

नील और कृष्णवर्ण, अशुभ वर्ण हैं । दुगन्ध, अशुभ गन्ध । गुरु, स्वर, रुक्ष और शोत स्पर्श, अशुभ स्पर्श । तिक्त और कटु रस, अशुभ रस हैं ।

(७३-७७) जिन कर्मोंसे अन्तिम पाँच संहननोंकी प्राप्ति हो, उन्हें 'अप्रथमसंहनन' नाम पापकर्म कहते हैं ।

पाँच संहनन ये हैं:—ऋषभनाराच, २ नाराच, ३ अर्धनाराच, ४ कीलिका और ५ सेवार्च ।

१—हड्डियोंकी सन्धिमें दोनों ओरसे मर्कटवन्ध और उनपर लपेटा हुआ पट्टा हो लेकिन खीलना हो, वह 'ऋषभनाराच' संहनन है।

२—दोनों ओर सिर्फ मर्कटवन्ध हो, वह 'नाराच'।

३—एक ओर मर्कटवन्ध और दूसरी तरफ खीला हो, तो 'अर्धनाराच'।

४—मर्कटवन्ध न हो कर सिर्फ खीलेसे ही हड्डियाँ जुड़ी हों, तो 'कीलिका'।

५—खीला न होकर इसी तरह हड्डियों आपसमें जुड़ी हों; तो 'सेवार्त'।

(७८-८२) जिन कमोंसे अन्तिम पाँच संस्थानोंकी ग्रासि हो; उन्हें 'अग्रथमसंस्थान' नाम प्रापकर्म कहते हैं।

पाँच संस्थान ये हैं:—१ न्यग्रोधपरिमण्डल; २ सादि; ३ कुञ्ज; ४ वामन और ५ हुंड।

१—बड़के बृक्षको न्यग्रोध कहते हैं, वह जैसा ऊपर पूर्ण और नीचे हीन होता है, वैसे ही, जिस जीवके नाभिका ऊपरी भाग पूर्ण और नीचेका हीन हो, तो 'न्यग्रोधपरिमण्डल' संस्थान समझना चाहिये।

२—नाभिके नीचेका भाग पूर्ण और ऊपरका हीन हो, तो 'सादि'।

३—हाथ, पैर, सिर आदि अवयव ठीक हों और  
पेट तथा छाती हीनहो तो, 'कुब्ज' ।

४—छाती और पेटका परिमाण ठीक हो और  
हाथ पैर सिर आदि छोटे हों, तो, 'वामन' ।

५—शरीरके सब अवयव हीन हों, तो, 'हुंड' ।

**थावरसुहुमअपज्जं,**

**साहारणनाथिरसुभदुभगाणि ।**

**दुससरसाइज्जज्जसं.**

**थावरदसगं विवज्जत्थं ॥ १५ ॥**

"इस गाथामें पहले कहे हुये स्थावरदशकका वर्णन है ।"

स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण, अस्थिर, अशुभ,  
दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीर्ति, ये पुण्यतत्त्वमें  
कहे हुये ब्रह्मदशकसे विपरीत अर्थवाले हैं ॥ १५ ॥

(१) जिस कर्मसे स्थावर शरीरकी प्राप्ति हो, उसे  
'स्थावर' नामकर्म कहते हैं । स्थावरशरीरवाले एकेन्द्रिय  
जीव, गरमी या सर्दीसे, चल किर न सकनेके कारण  
अपना वचाव नहीं कर सकते ।

(२) जस कसेमिँॉ, अखसे नहीं देखने योग्य शरीर  
मिले उसे 'सूक्ष्म' नामकर्म कहते हैं ।

निगोदके जीव, सूक्ष्म शरीरवाले होते हैं ।

(३) जिस कर्मसे अपनी पर्याप्तियाँ पूरी किये विनाहीं जीव मर जावे, उसे 'अपर्याप्त' नामकर्म कहते हैं ।

(४) जिस कर्मसे अनन्त जीवोंको एक शरीर मिले, उसे 'साधारण' नामकर्म कहते हैं । जैसे:—आलू, जमीकन्द, आदिके जीव ।

(५) जिस कर्मसे कान, भौंह, जीव आदि अवयव अस्थिर होते हैं; उसे 'अस्थिर' नामकर्म कहते हैं ।

(६) जिस कर्मसे नाभिके नीचेका भाग अशुभ हो, उसे 'अशुभ' नामकर्म कहते हैं ।

(७) जिस कर्मसे जीव किसीका ग्रीतिपात्र न हो, उसे 'दुर्भग' नामकर्म कहते हैं ।

(८) जिस कर्मसे जीवका स्वर सुननेमें बुरा लगे, उसे 'दुःस्वर' नामकर्म कहते हैं ।

(९) जिस कर्मसे जीवका वचन, लोगोंमें माननीय न हो, उसे 'अनादेय' नामकर्म कहते हैं ।

(१०) जिस कर्मसे लोकमें अपयश और अपकीर्ति हो, उसे 'अयशाकीर्ति' नामकर्म कहते हैं ।

आस्त्रवत्त्वं ।

इन्दिय कसाय अठरय;

जोगा पंच चउ पंच तिन्ति नमा ।

किरिआआ हणवीसं,

इमा उ ताओ श्रणु झनसो ॥ १६ ॥

“इस गाथामें आस्त्रके व्यालीस भेद कहे हैं ।”

पॉच इन्द्रियोँ; चार क्षाय, आँच अव्रत, तीन योग  
और पचीस क्रियायें, ये आस्त्रके व्यालीस भेद हैं ॥ १६ ॥

आस्त्रके दो भेद हैं; भावास्त्र और द्रव्यास्त्र ।

जीवका शुभ, अशुभ परिणाम, ‘भावास्त्र’  
कहलाता है ।

शुभ—अशुभ परिणामोंको पैदा करनेवाली व्यालीस  
प्रकारको वृत्तियोंको ‘द्रव्यास्त्र’ कहते हैं ।

इन्द्रियों दो तरहकी हैं; द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय ।  
द्रव्येन्द्रिय पुङ्गलरूप है और भावेन्द्रिय है जीवकी  
शब्दादिको ग्रहण करनेमी शक्ति ।

क्षाय चार हैं;—क्रोध, मान, माया और लोभ ।

पॉच अव्रत;—प्राणातिपात (हिंसा), मृषावाद  
(झूठ बोलना), अदत्तादान (चोरी), मैथुन और परिग्रह ।

तीन योग;—मनयोग, वचनयोग और काययोग ।

काइअ अहिगरणीया,  
पाउसिया पारितावणी किरिया ।  
पाणाइ वाइरंभिअ,  
परिगगहिया मायवत्तीया ॥ १७ ॥

“इस गाथामे तथा आगेकी दो गाथाओंमे पञ्चीस क्रियाओंके नाम हैं।”

कायिकी, अधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी, प्राणातिपातिकी, आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी ॥ १७ ॥

(१) असावधानीसे शरीरके व्यापारसे जो क्रिया लगती है उसे ‘कायिकी’ कहते हैं।

(२) जिस क्रियासे जीव, नरकमें जानेका अधिकारी होता है उसे ‘अधिकरणिकी’ कहते हैं। जैसे खड्ड आदिसे जीवकी हत्या करना।

(३) जीव तथा अजीवके ऊपर द्वेष करनेसे ‘प्राद्वेषिकी’।

(४) अपने आपको और दूसरोंको तकलीफ पहुँचानेसे ‘पारितापनिकी’ क्रिया लगती है।

(५) दूसरोंके प्राणोंका नाश करनेसे ‘प्राणातिपातिकी’।

(६) खेती आदि करनेसे ‘आरम्भिकी’।

- (७) धान्य वगैरहके संग्रह तथा उसपर ममता करनेसे 'पारिग्राहिकी' ।  
 (८) दूसरोंको ठानेसे 'मायाप्रत्ययिकी' ।

मिथ्यादर्शसणवत्तो,

अप्पचबकखाँणा य दिट्ठी पुट्ठो अ ।

पाडुचिवच्च सामंतो,

वणोअ नेसतिय क्षाहतिथ ॥ १८ ॥

मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी, अप्रत्याख्यानिकी, दृष्टिकी, स्पृष्टिकी, प्रातीत्यकी, सामंतोपनिपातिकी, नैशस्त्रिकी, स्वहस्तिकी ॥ १८ ॥

(९) जिनेन्द्रवचनसे विपरीत, मिथ्यादर्शनसे 'मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी' क्रिया लगती है ।

(१०) संयमके विघातक कषायोंके उदयसे प्रत्याख्यान न करना उससे 'अप्रत्याख्यानिकी' ।

(११) रागादिकलुपित चित्तसे पदार्थोंको देखनेसे 'दृष्टिकी' ।


(१२) रागादिकलुपित चित्तसे स्त्री आदिके अंगका स्पर्श करनेसे 'स्पृष्टिकी' क्रिया लगती है ।

(१३) जीवादि पदार्थोंको लेकर कर्मबन्धनसे जो क्रिया लगती है उसे 'प्रातीत्यको' कहते हैं ।

(१४) अपना वैभव देखनेकेलिये आये हुये लोगों की वैभवविषयक प्रशंसा सुनकर खुश होनेसे तथा धीं तेल आदिके खुले वर्तनोंमें त्रस जीवोंके गिरनेसे जो क्रिया लगती है उसे सामन्तोपनिपातिकी' कहते हैं।

(१५) राजा आदिके हुक्मसे यन्त्र, हथियार आदिके बनाने तथा खीचने आदिसे जो क्रिया लगती है उसे 'नैशस्त्रिकी' कहते हैं।

(१६) हिरन, सरगोश, आदि जीवोंको शिकारी कुत्तोंसे मरवाने या खुद मारनेसे जो क्रिया लगती है उसे 'स्वहस्तिकी' कहते हैं।



अणवणि विअरणिअा,

अणभोगा अणवकंखपच्चइअा ।

अन्न पश्चोग समुदाण,

पिञ्ज दोसंरिअावहिअा ॥ १६ ॥

आनयनिकी, ददारणिकी, अनाभोगिकी, अनव-  
कांक्षाप्रत्ययिकी, प्रायोगिकी, सामुदायिकी, ऐमकी,  
द्वेषिकी और ऐर्यपिथिकी। इन पचीस क्रियाओंसे कर्मका  
आस्त्र होता है ॥ १६ ॥

(१७) जीव तथा जड़ पदार्थोंको किसीके हुक्मसे या खुद लाने लेजानेसे जो क्रिया लगती है उसे 'आनयनिकी' कहते हैं।

(१८) जीव और जड़ पदार्थोंको चीरने फाड़नेसे जो क्रिया लगती है, उसे 'बैदारणिकी' कहते हैं।

(१९) वेपर्वाहीसे चीजोंके उठाने रखने तथा चलने फिरनेसे जो क्रिया लगती है, उसे 'अनाभोगिकी' कहते हैं।

(२०) इस लोक तथा परलोकके विरुद्ध आचरण करनेसे 'अनवक्ताङ्गत्ययिकी'।

(२१) मन, वचन और शरीरके अयोग्य व्यापारसे 'आयोगिकी' क्रिया लगती है।

(२२) किसी महापापसे आठों कर्मोंका समुदितरूपसे बन्धन हो, तो 'सामुदायिकी'।

(२३) माया और लोभ करनेसे जो क्रिया लगती है उसे 'प्रेमिकी' कहते हैं।

(२४) क्रोध और मानसे 'द्वेषिकी'।

(२५) सिर्फ शरीरव्यापारसे जो क्रिया लगती है उसे 'ऐर्यापथिकी' कहते हैं।

यह क्रिया अप्रमत्त साधु तथा सयोगी केवलीकों में लगती है।

## संवरतत्त्व ।

समिइ गुप्ति परीसह,  
 जइधम्मो भावणा चरित्ताणि ।  
 पण ति दुवोस दस बार,  
 पंच भेषहि सगवन्ना ॥ २० ॥

“इस गाथामें संवरके सत्तावन भेद गिनाये हैं” ।

पाँच समिति, तीन गुप्ति, वाईस परीसह, दस प्रकार-  
का यतिधर्म, वारह भावना और ताँच प्रकारका चारित्र,  
ये संवरके सत्तावन भेद हैं ॥ २० ॥

संवरके दो भेद हैं; द्रव्यसंवर और भावसंवर ।  
आते हुये नवीन कर्मको रोकनेवाले आत्माके परिणामको  
'भावसंवर' कहते हैं और कर्मपुद्गलकी रुकावटको  
'द्रव्यसंवर' कहते हैं ।

आर्हतधर्मके अनुसार जो चेष्टाविशेष, उसे 'समिति'  
कहते हैं ।

## पाँच समिति ।

(१) कोई जीव पैरसे न दब जाय इस प्रकार राहमें  
सावधानीसे चलना, उसे 'ईर्यासमिति' कहते हैं ।

(२) निर्दोष भाषा बोलनेको 'भाषासमिति' कहते हैं ।

(३) निर्दोष आहार जो वयालीस दोपोंसे रहित होता है, उसको लेना, 'एषणासमिति' ।

(४) दृष्टिसे देखके और रजोहरणसे प्रमार्जन करके चीजोंका उठाना और रखना, 'आदाननिक्षेप समिति' ।

(५) कफ, मूत्र, मल आदिको जीवरहित जगहमें छोड़ना, 'पारिष्ठापनिका' समिति ।

### [ तीन गुप्ति । ]

(६) मनोगुस्तिके तीन भेद हैं; असत्कल्पनावियोगिनी, समताभाविनी और आत्मारामता ।

आर्त तथा रौद्र ध्यानसम्बन्धी कल्पनाओंका त्याग, 'असत्कल्पनावियोगिनी' ।

सब जीवोंमें समान भाव, 'समताभाविनी' ।

केवलज्ञान होनेके बाद सम्पूर्ण योगोंके निरोध करनेके समय 'आत्मारामता' ।

(७) वचनगुस्तिके दो भेद हैं; मौनावलम्बिनी और वाड्नियमिनी । किसी अभिप्रायको समझानेकेलिये भ्रुकुटि आदिसे संकेत न करके मौन धारण करना, 'मौनावलम्बिनी' । बॉचने या पूछनेके समय मुँहके सामने 'मुखवस्त्रिका' धारण कहना, 'वाड्नियमिनी' ।

(c) कायगुस्तिके दो नेद हैं; चेष्टानिवृत्ति और यथासूत्रचेष्टानियमिनी ।

१, योगनिरोधावस्थामें केवलीका सर्वथा शरीरचेष्टाका परिहार तथा २ कायोत्सर्गमें अनेक प्रकारके उपसर्ग होते हुये भी शरीरको स्थिर रखना, 'चेष्टानिवृत्ति' ।

साधु लोग, उठने बैठने सोने आदिमें जैनसिद्धान्तके मुताविक शरीरके व्यांपारको नियमित रखते हैं, उसे 'यथासूत्रचेष्टानियमिनी' कहते हैं ।

— \*: —

खुहा पीवासा सिउणहं,  
दंसा चेला ऽरइत्थिओ ।  
र दिघा नितिहिधा सिजजा,  
आबकोस वह जायणा ॥ २१ ॥

"इस गाथामें तथा अगली गाथामें वाईस परिसहोंका वर्णन है" ।

खुहा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, चेल, अरति, स्त्री, चर्या, नैवेधिकी, शग्गा, आक्रोश, वध, याचना ।

धर्मकी रक्षाकेलिये तथा कम्मोंकी निर्जराकेलिये प्राप्त हुये दुःखोंको सब तरहसे सहन करना, 'परिसह' कहलाता है ॥ २१ ॥

(१) कुधापरिसह—कुधोंके समान कोई चीज़ अधिक पीड़ा देनेवाली नहीं है। भूखसे पेटकी आँतें जलने लगती हैं। कैसीभी तेज् भूख लगे तौभी साधु-लोग निर्दोष आहार जबतक नहीं मिलता है तबतक भूखकी पीड़ाको सहन करते हैं। कुधापरिसह सब परिसदोंसे कड़ा है इसलिये प्रथम कहा गया।

(२) पिपासा—जबतक अचित्त जल न मिले तबतक प्यासके वेगको सहना।

(३) शीत—बड़ी ठण्ड पड़ती हो तौभी आग जलाकर तापे नहीं, न दूसरेकी जलाई आगसे भी शीत दूर करे। अकल्पनीय वस्त्रोंकी इच्छा न करे। जो कुछ फटे पुराने वस्त्र अपने पास हों उसीसे काम निकाले और ठण्डको शान्तचित्तसे सहन करे।

(४) उरण—अत्यन्त गरमी पड़ती हो तौभी साधु स्नान करनेकी इच्छा न करे। छत्र धारण न करे। पंखेकी हवा न करे। गरमीको सहन करे,

(५) दंश—वर्षाच्छ्रुतुमें मच्छर आदि जीवोंका बहुत उपद्रव रहता है, कार्योत्सर्ग आदि धर्मक्रियाओंमें वे जन्तु काटते हैं, उसे सहन करे।

(६) अचेल—चेलका अर्थ है वस्त्र, डसका अभाव, अचेल कहलाता है। यहाँ अचेलका मतलब सर्वथा वस्त्रो-

का अभाव नहीं समझना चाहिये किन्तु आगममें साधुओं को जितने वस्त्र रखनेकी आज्ञा है उतने ही रखें। कीमती नये वस्त्रोंकी इच्छा न करे, जो कुछ फटे पुराने वस्त्र हीं उनमें सन्तोष रखें।

(७) अरति—अपने मनके मुवाफिक उपाश्रय आहार आदि न मिलनेसे दुखी न होवे।

(८) स्त्री—स्त्रियोंके अंगप्रत्यंगोंको न देखे। उनके साथ एकान्तमें बात चीत करना, हँसना आदि व्यापार न करे। मोक्षमार्गमें उन्हें अर्गलाके समान समझकर कभी कामदृष्टिसे देखे नहीं।

(९) चर्या—वहता हुआ जल और विहार करनेवाला साधु, दोनों स्वच्छ रहते हैं इसलिये साधुको किसी एक जगह अधिक ठहरना न चाहिये। धर्मका उपदेश देते हुये अप्रतिवद्व विहार करे।

(१०) नैपैधिकी—स्मशान, शून्यमकान, सिंहकी गुफा आदि स्थानोंमें ध्यान करनेके समय, विविध उपसर्गों के होनेपर निपिद्ध चेष्टा न करे।

(११) शश्या—जहाँ ऊँची नीची जमीन हो, धूल पड़ी हो, विस्तर दुरुस्त न हो, तो नाँदमें खलल पहुँचता है तौं भी मनमें उद्वेग न करे।

(१२) आक्रोश—कोई गाली देवे या कड़ु बचन बोले, तो उसे सहन करे ।

(१३) वध—कोई दुष्ट मार पीट करे या जानसे मार डाले तौं भी साधु क्रोध न करे ।

(१४) याचना—साधुको चाहिये कि यदि आहार आदि चीज, गृहस्थ लाकर अपने स्थानपर पहुंचावे तो न लेवे यिन्तु खुद भिजा माँगकर लावे । माँगनेमें कोई अपमान करे तो बुरा न माने, न भिजा माँगनेमें लज्जा करे ।



अलाभ रोग तणकासा,  
मल सत्कार परीसहा ।  
पन्ना अन्नाण सम्मतं,  
इश्वर वाविस परिसहा ॥ २२ ॥

अलाभ, रोग, तणस्पर्श, मल, सत्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और सम्यक्त्व ये वाईस परीसह हैं ॥ २२ ॥

(१५) लाभान्तराय कर्मका जब उदय होता है तो माँगनेपर भी वस्तु नहीं मिलती चाहे वह चीज दाताके घरमें अधिक हो । साधु लोग निर्दोष आहार आदिकी अप्राप्तिसे उद्घेग न करें किन्तु यह समझकर कि अन्तराय

कर्मका उदय है, समचित् वने रहें। इसे 'अलाभपरिसह' कहते हैं।

(१६) रोग—ज्वर, अतिज्वर आदि भयक्कर रोग होनेपर जिनकल्पी साधु चिकित्सा करनेकी इच्छा भी न करे किन्तु अपने कृतकर्मका परिपाक समझकर वेदनाको सहन करे। स्यविरकल्पी साधु आगमोक्त विधिसे निरवद्य चिकित्सा करावे और कर्मफल मिल रहा है ऐसा विचार करे किन्तु वेदनाप्रयुक्त आर्तध्यान न करे।

(१७) तृणस्पर्श—रोगपीड़ित साधु, घास आदिके विस्तरके तृणके गड़नेसे दुखो न हो किन्तु शान्तचित्तसे वेदना सहन करे।

(१८) मल—पसोनेसे शरीरमें मल बढ़ाय, दुर्गन्ध आने लगे तांभी स्नान करनेकी इच्छा न करे।

(१९) सत्कार—लोकसमुदाय या राजा महाराजाओं की स्तुति, वन्दना या आदर-सत्कारसे साधु अपना उत्कर्ष न समझे। ओ॒ न आदर-सत्कारके न पानेसे दुखी हो।

(२०) प्रज्ञा—बड़ी विद्वत्ता होनेपर भी साधु घमण्ड न करे तथा अल्प ज्ञान होनेपर भी शोक न करे।

(२१) अज्ञान—ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे पढ़नेमें मेहनत करने पर भी विद्या हाँसिल नहीं होती। साधु कभी ऐसा दुर्धर्यान न करे कि, “मैंने गृहस्थाश्रम छोड़ा, साधु बना हूं, तप जप करता हूं, पढ़नेमें मेहनत करता हूं तौभी मुझे विद्या प्राप्त नहीं होती इसलिये मुझे धिकार है कि साधु होकर भी मैं मूर्ख हूं” किन्तु अपने किये कर्मका फल सोचकर सन्तोष करे।

(२२) सम्यक्त्व—जैनसिद्धान्त, देव, गुरु, धर्म आदि जिनोपदिष्ट पदार्थोंमें सन्देह न करे।

खंतो मद्व अज्जव,

मुक्तो तव संजमे अ बोधवे ।

सच्चं सोऽं आकिं—,

चणं च वर्भं च जइधम्मो ॥ २३ ॥

“इस गाथामें दस प्रकारके यतिधर्मका वर्णन है।”

क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति (सन्तोष), तप, संयम, सत्य, शौच, अकिञ्चनत्व और ब्रह्मचर्य, ये दस यति के धर्म हैं ॥ २३ ॥

सब प्राणियोंपर समान दृष्टि रखनेसे क्रोध नहीं होता। क्रोधका न होना, ‘क्षमा’ कहाती है।

अहङ्कारका त्याग, 'मार्दव' कहाता है ।

कपट न करना, 'आर्जव' कहाता है ।

लोभ न करना, 'मुक्ति' कहाती है ।

इच्छाका निरोध, 'तप' कहाता है ।

वाह्य और अभ्यन्तर भेदसे वारह ग्रकारका तप है ।

प्राणातिपात ( हिंसा ) का त्याग, 'संयम'  
कहाता है ।


सच बोलना, 'सत्य' कहाता है ।

किसी जीवको तकलीफ न हो ऐसा वर्तीव करना,  
हाथ, पैर आदिको पवित्र रखना, चोरी न करना, 'शौच'  
कहाता है ।

सब परिग्रहोंका त्याग, 'अकिञ्चनन्त्व' कहाता है ।

मैथुनका परित्याग, 'ब्रह्मचर्य' कहाता है ।

ऊपर कहे हुये दस गुण जिसमें हों, उसे साधु  
समझना चाहिये ।



पठममणिच्चवमसरणं,

संसारो एगया य अरणत्तं ।

आसुइत्तं ओसव संवरो,

अ तह गिरजरा नवमी ॥ २४ ॥

“इस गाथामे तथा आगेको गाथामें वारह् भावनाएँ  
कही गई हैं ।”

अनित्यभावना, अशरणभावना, संसारभावना,  
एकत्वभावना, अन्यत्वभावना, अशुचित्वभावना, आस्त्र-  
भावना, संवरभावना, निर्जराभावना ॥ २४ ॥

( १ ) धन, यौवन, कुदुम्ब आदि. संसारके सब  
पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा चिन्तन करना ‘अनित्यभावना’  
कहाती है ।

( २ ) सग्राट्, चक्रवर्ती, इन्द्र, तीर्थझर आदि  
महापुरुषोंको भी मृत्युसे कोई नहीं बचा सकता, फिर  
साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या ? मृत्युके मुखमें पड़े  
हुए जीवका धन, कुदुम्ब आदि कोई शरण नहीं है,  
ऐसा हमेशा विचार करना तथा सिवा धर्मके किसीको  
शरण न मानना, ‘अशरणभावना’ कहाती है ।

( ३ ) चौरासी लाख योनियोंमें जीव भ्रमण करता  
है । किसी योनिमें माता, स्त्री वन जाती है; स्त्री, माता  
वन जाती है; पिता, पुत्र वन जाता है; पुत्र, पिता वन  
जाता है; संसारकी इस तरहकी अव्यवस्थाका हमेशा  
विचार करना, ‘संसारभावना’ कहाती है ।

( ४ ) यह जीव संसारमें अकेला आया है, अकेला ही जायगा और अकेला ही सुख या दुःख भोगेगा, कोई साथी होनेवाला नहीं, ऐसा हमेशा विचार करना, 'एकत्वभावना' कहाती है ।

( ५ ) आत्मा, ज्ञानस्वरूप है; शरीर जड़ है; शरीर आत्मा नहीं, न आत्मा शरीर है, शरीर, इन्द्रिय, मन, धन, कुदुम्ब आदि, आत्मासे भुटे हैं, ऐसा हमेशा विचार करना, 'अन्यत्वभावना' कहाती है ।


( ६ ) यह शरीर खून, मौस, हड्डी, मल, मूत्र आदिसे भरा है; यह शरीर किसी उपायसे पवित्र होनेवाला नहीं है, ऐसा हमेशा विचार करना, 'अशुचित्वभावना' कहाती है ।

( ७ ) संसारके जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्याज्ञान आदिसे नये नये कर्म वांधते हैं, ऐसा हमेशा विचार करना, 'आस्त्रभावना' कहाती है ।

( ८ ) कर्मवन्धके कारणभूत, मिथ्याज्ञान आदिको रोकनेके उपाय सम्यकज्ञान आदि हैं, ऐसा विचार करना 'संवरभावना' कहाती है ।

( ९ ) निर्जराभावना दो तरहकी है;—सकामा और अकामा । समझकर तपके जरिये कर्मका क्षय करना, सकामा । बिना समझे भूख प्यास आदि दुःखोंके वेगको

सहन करनेसे जो कर्मक्षय होता है, उसे अकामा कहते हैं। ऐसे चिन्तनको 'निर्जराभावना' कहते हैं।



लोगसहावो बोही,  
दुलज्जहा धम्मस्स साहगा अरिहा ।  
एआओ भावणाओ,  
भावेअब्बो पयन्तेण ॥ २५ ॥

लोकस्वभावभावना, बोधिदुर्लभभावना और धर्मके कथक—उपदेशकर्ता सर्वज्ञ वीतरागका पाना मुश्किल है, इस तरहकी धर्मभावना, इन बारह भावनाओंको प्रयत्नसे विचारे ॥ २५ ॥

( १० ) कमर पर दोनों हाथोंको रखकर और पैरोंको फैलाकर खड़े हुये पुरुषको आङ्गृतिके समान यह लोक है, जिसमें धर्मास्तिकायादि छह द्रव्य भरे पड़े हैं। ऐसा विचार करना, 'लोकभावना' कहाती है।

( ११ ) संसारमें अनन्तकालसे जीव भ्रमण कर रहा है अनेकवार चक्रवर्तीके जैसी ऋद्धि पाई; मनुष्य-जन्म, उत्तम कुल, आर्य देश पाया तथापि सम्यक्ज्ञान ( यथार्थज्ञान ) पाना मुश्किल है, इस भावनाको 'बोधिदुर्लभभावना' कहते हैं।

( १२ ) संसारसमुद्रसे पार उतारनेमें नौकाके समाने ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप धर्मका उपदेश करने वाले अरिहंत आदिको पाना तथा उसके कहे हुए धर्मको पाना शुश्किता है; ऐसे विचारको 'धर्मभावना' कहते हैं।



सामाइष्ट्यं पद्मं,

छेऽओवटावणं भवे वीअं ।

परिहारविसुद्धीअं,

सुहुमं तह संपरायं च ॥ २६ ॥

"इस गाथामें पाँच प्रकारके चारित्रका वर्णन है।"

सामायिकचारित्र, छेदोपस्थापनीयचारित्र, परिहार-  
विशुद्धिचारित्र, स्फृत्तमसंपरायचारित्र ॥ २६ ॥

( १ ) सदोप व्यापारका त्याग और निर्दोप व्या-  
पारका सेवन अर्थात् जिससे ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी  
ग्रासि हो, उस व्यापारको 'सामायिकचारित्र' कहते हैं।

( २ ) प्रधान साधुके द्वारा दिये हुये पाँच महाव्रतों  
को 'छेदोपस्थापनीय चारित्र' कहते हैं।

( ३ ) नव साधु गच्छसे भलग होकर सिद्धान्तमें

लिखी हुई विधिके अनुसार अठाएँ मास तक तप करते हैं, उसे 'परिहारविशुद्धिचारित्र' कहते हैं।

( ४ ) दसवें गुणस्थानकमें पहुँचे हुये साधुके चारित्र को 'सूक्ष्मसंप्रायचारित्र' कहते हैं।

— — — — —

तत्त्वो अ अहकर्त्वायं,  
खायं सद्वर्त्मि जीवलोगंमि ।  
जं चरित्यग्ण सुविहित्रा;  
बद्धचंतऽयरामरं ठाणं ॥ २७ ॥

सब लोकमें यथाख्यात-चारित्र प्रसिद्ध है, जिसका सेवन करके साधु लोग मोक्ष पाते हैं ॥ २७ ॥

( ५ ) क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंके सर्वथा क्षय होनेपर या उपशम होनेपर साधु का जो चारित्र है, उसे "यथाख्यातचारित्र" कहते हैं।

इस जमानेमें आदिके दो चारित्र हैं, अन्तके तीन व्युच्छन्न हुये ।

संवरतत्व समाप्त ।

## निर्जरातरव ।

अणसणमूणोऽरिआ,  
 वृत्तीसंखेवणं रसच्चाओ ।  
 कायकिलेसो संलीणया,  
 य बजभो तवो होइ ॥ २८ ॥

“इस गाथामें छह प्रकारका वाद्य तप कहा है।”

अनशन, ऊनोदरता, वृत्तिसंक्षेप, रसत्याग, कायङ्क श  
और संलीनता, ये छह प्रकारके वाद्य तप हैं ॥ २८ ॥

( १ ) आहारका त्याग, ‘अनशन’ कहलाता है,  
बुद्ध दो प्रकारका है; ‘इत्वर’ और ‘यावत्कथिक’ । चतुर्थ,  
पंच, अष्टम आदि तप, ‘इत्वर’ कहलाता है और जब तक  
जीवे तव तक आहारका त्याग, ‘यावत्कथिक’ तप  
केहलाता है ।

( २ ) आहार कम करता, ‘ऊनोदरता’ तप  
कहाता है ।

( ३ ) वृत्तिका—जीवनके निर्वाहकी चीजोंका-  
संक्षेप करना, ‘वृत्तिसंक्षेप’ तप है । द्रव्य, चेत्र, काल,  
भावसे चार प्रकारका यह तप है ।

( ४ ) दूध, घी, तेल, दही, मुड़, शकर आदिका

त्याग, 'सत्याग' कहलाता है; जैसे नोवी, आम्बिल आदि तप।

( ५ ) साधु लोग, लोच करते हैं अर्थात् सिरके चाल उखाड़ते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं और भी अनेक प्रकारसे शरीरको कष्ट पहुँचाते हैं, उसे सहते हैं, यह सब 'कायङ्केश' तप कहलाता है।

( ६ ) इन्द्रियोंको वशमें रखना; क्रोध, लोभ आदि न करना; मन, वचन, कायासे किसी जीवको तकलीफ न होने देना; उपाश्रय आदि एकान्त जगहमें रहना; यह 'संलीनता' तप कहलाता है।

पायच्छित्तं विणाओ,

देयावच्चं तहेव सज्जाओ।

भाणं उस्सगो वि अ,

झडिभितरओ तवो होइ ॥ २४ ॥

"इस गाथामें छह प्रकारका अभ्यन्तर तप कहा है।"

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सर्ग, ये छह अभ्यन्तर तप हैं ॥ २४ ॥

( १ ) जो पाप किये हों, उन्हें गुरुके पास कहे, पापशुद्धिकेलिये गुरु जो तप घतलावें, उसे करे यह "प्रायश्चित्त" कहाता है।

( २ ) देव, गुरु, माता, पिता, आदि पूज्योंका आदर-सत्कार करना उन्हें अपने शुद्ध आचरणसे सन्तुष्ट रखना; इसे 'विनय' कहते हैं ।

( ३ ) आचार्य, उपाध्याय, साधु, तपस्वी, दीन आदिको अन्न, जल, वस्त्र, ठहरनेकेलिये जगह आदि देना; इसे "वैयावृत्त्य" कहते हैं ।

( ४ ) पढ़ना, पढ़ाना, सन्देह होनेपर गुरुसे पूछना, पढ़े हुये ग्रन्थको याद रखना, धर्मकी कथा कहना, धर्मका उपदेश देना; यह सब 'स्वाध्याय' कहलाता है ।

( ५ ) चित्तकी एकाग्रताको 'ध्यान' कहते हैं, उसके चार भेद हैं;—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ।

आर्त और रौद्र ध्यानका त्याग करना चाहिये ।

धर्म और शुक्ल ध्यानका सेवन करना चाहिये ।

आर्त—मित्र, माता, पिता आदिकी मृत्यु होनेपर शोक करना; कोढ़ी, रोगी आदिको देखकर घृणा करना; शरीरमें कोई रोग होनेपर उसीकी चिन्ता करना; इस जन्ममें किये हुये दान आदि तपका दूसरे जन्ममें अच्छे फल पानेकी चिन्ता करना; ये सब 'आर्तध्यान' कहलाते हैं ।

रौद्र—द्वेषसे किसी जीवको मारने या उसे कष्ट पहुँचानेकी चिन्ता करना; छल, कपट करके दूसरेका

धन लेनेकी चिन्ता करना; हिस्सेदार कुँडमी मर्जाँय तो  
मैं अकेला ही मालिक बन वैठूँगा ऐसी चिन्ता करना;  
ये सब 'रौद्रध्यान' कहाते हैं।

**धर्म**—ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वैराग्य आदि को भावना  
करना; सर्वज्ञ वीतरागके उपदेशरूप सिद्धान्तमें सन्देह न  
करके उसपर पूरी श्रद्धा रखना; राग, द्वेष, क्रोध, काम,  
लोभ, मोह आदि, इस लोक तथा परलोकमें भी दुःख  
देनेवाले हैं ऐसा चिन्तन करना; सुख दुःख प्राप्त होनेपर  
हर्ष और शोक न कर पूर्वरूपको फ़ल मिल रहा है,  
ऐसा समझना; जिनेन्द्र भगवान्के कहे हुये छह द्रव्योंका  
विचार करना; यह सब 'धर्मध्यान' कहाता है।

**शुक्र**—शुक्रध्यानके चार भेद हैं; पृथक्त्ववितर्क  
सविचार, एकत्ववितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति  
और व्युपरक्रिया अनिवृत्ति।

( १ ) द्रव्य, गुण और पर्यायके जुदाईको पृथक्त्व  
कहते हैं; अपनी आत्माके शुद्ध स्वरूपका अनुभवरूप  
भावश्रुत, वितर्क कहलाता है और मन, वचन, और काय,  
इन तीन योगोंमें से एक योग ग्रहण कर दूसरेमें संक्रमण  
करना, विचार कहलाता है।

( २ ) आत्मद्रव्यमें या उसके विकाररहित सुखके  
अनुभवरूप पर्यायमें या निरुपाधि ज्ञानरूप गणमें

आत्मानुभवरूप भावश्रुतके बलसे स्थिर होकर द्रव्य, गुण और पर्यायोंका विचार करना ।

( ३ ) तेरहवें गुणस्थानके अंतमें मनोयोग और वचनयोगको रोकनेके बाद काययोगको रोकनेमें प्रवृत्त होना ।

( ४ ) तीनों योगोंका अभाव होनेपर फिर च्युत न होनेवाला अनन्त ज्ञान, अनन्त सुखको एकसे अनुभव ।

( ६ ) उत्सर्ग तथके द्रव्य और भावरूपसे दो भेद हैं । द्रव्य उत्सर्ग—गच्छका त्याग करके 'जिनकल्प' स्वीकार करना; अनशनब्रत लेकर शरीरका त्याग; किसी कल्पविशेषमें उपधिका त्याग; सदोप आहारका त्याग; ये सब 'द्रव्योत्सर्ग' कहलाते हैं ।

भावोत्सर्ग—क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग, नरक आदि योनिकी आयुं वॉधनेमें कारणभूते मिध्याज्ञान आदिका त्याग; ज्ञानके आवरण करनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्मका त्याग; ये सब 'भावीत्सर्ग' कहलाते हैं ।

— \* : —

बारसविहं तवो णि,—

ज्जार य बंधो चउविगप्तो अ ।

पर्याई-ठिई-अगुभाग,—  
पएक्षभेषहि नायठ्वो ॥ ३० ॥

“इस गाथा में कुछ अंशका सम्बन्ध निर्जरातत्त्वके साथ है, अवशिष्ट अंशमें वन्धतत्त्वके चार भेद कहे गये हैं।”

प्रथम कहे हुये वारह प्रकारके तप ही निर्जरातत्त्वके वारह भेद हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और वन्ध, ये चार वन्धके भेद हैं ॥ ३० ॥

पै-इ सहावो बुत्तो,  
ठिई कालावहारण ।  
अगुभागो रसो गोओ,  
पएसो दलसंचओ ॥ २१ ॥

“इस गाथा में पूर्वोक्त प्रकृति आदिका स्वरूप कहा गया है।”  
कर्मका स्वभाव ‘प्रकृतिवन्ध’ कहा जाता है; कर्मके कालका निश्चय ‘स्थितिवन्ध’; कर्मका रस ‘अनुभागवन्ध’ और कर्मके दलका सचय, ‘अदेशवन्ध’ कहाता है ॥ २१ ॥

प्रकृतिवन्ध—जिस तरह वात, पित्त और कफके हरण करनेवाली चीजोंसे बने हुए लड्डूका स्वभाव, वात आदिका दूर करना है, उसी तरह किसी कर्मका स्वभाव

जीवके ज्ञानका आवरण करना, किसी कर्मका जीवके दर्शनका आवरण करना, किसीका स्वभाव चारित्रिका आवरण करना होता है, इस स्वभावको 'प्रकृतिवन्ध' कहते हैं।

**स्थितिवन्ध**—जैसे वना हुआ लड्डू, महीने, छह महीने या वर्ष तक एक हो हालतमें रहता है उसी तरह कोई कर्म अन्तमुर्हृत तक रहता है, कोई सत्तर क्रोड़ाक्रोड़ी सागरोपम तक, कोई वर्ष तक, इसीको 'स्थितिवन्ध' कहते हैं।

**अनुभागवन्ध**—जिस तरह कोई लड्डू ज्यादा मीठा होता है कोई थोड़ा, कोई अधिक कहुआ होता है, कोई अल्प और कोई ज्यादा तीखा होता है कोई थोड़ा, इत्यादि अनेक प्रकारके रमबाला होता है, उसी तरह ग्रहण किये हुये कर्मदलोंमें तरतमभावसे देखा जाय तो किसीका रस-फल ज्यादा शुभ होता है, किसीका थोड़ा और किसीका रस-फल अधिक अशुभ होता है किसीका अल्प इत्यादि अनेक प्रकारका रस होता है, उसे 'रस-वन्ध' कहते हैं। अनुभाग और रस, दोनोंका मतलब एक ही है।

**प्रदेशवन्ध**—जैसे कोई लड्डू पावभर, कोई आधसेर परिमाणका होता है। उसी तरह कोई कर्मदल, परिमाणमें

कम होता है और कोई ज्यादा, अनेक प्रकारके परिमाण होते हैं, इन परिमाणोंको 'प्रदेशबन्ध' कहते हैं।

## मोक्षतत्त्व

संतप्यपरूपणाया,  
द्रव्यपनाणं च खित्त फुलणाय।  
कालो अ अन्तर भाग,  
भावे अप्पाष्टहुं चेव ॥ ३२ ॥

"इस गाथामे मोक्षके नव भेद कहे हैं।"

सत्पदप्ररूपणाद्वार, द्रव्यप्रमाणद्वार, त्रिवद्वार, स्पर्श-  
नाद्वार, कालद्वार, अन्तरद्वार, भागद्वार, भावद्वार और  
अल्पवहुत्वद्वार, ये मोक्षके नव द्वार हैं अर्थात् मोक्षका  
स्वरूप समझनेके नव भेद हैं ॥३२॥

संतं सुद्धपयत्ता,  
विजञ्जंतं खकुमुमं च न असंतं ।  
मुक्ख त्ति पयं तस्स उ,  
परूपणामगणाईहि ॥ ३३ ॥

“इस गाथा में सत्पदप्ररूपणाद्वारका स्वरूप कहा है।”

मोक्ष, सत् अर्थात् विद्यमान है क्योंकि उसका वाचक एक पद है, आकाशकुसुमकी तरह वह अविद्यमान नहीं है, मार्गणा द्वारा मोक्षकी प्ररूपणा (विचार) की जाती है ॥ ३३ ॥

एक पदका वाच्य अर्थ आवश्य होता है; घट, पट आदि एकपदवाले शब्द हैं उनका वाच्य अर्थ भी विद्यमान है। दोपदवाले शब्दोंके वाच्य अर्थ होते भी हैं, और नहीं भी होते;—जैसे ‘गोशृङ्ख’, ‘महिपशृङ्ख’। ये शब्द, दो दो पदोंसे बने हैं, इनका वाच्य अर्थ, ‘गायका सींग’, ‘मैंसका सींग’ प्रसिद्ध है। ‘खरशृङ्ख’, ‘अश्वशृङ्ख’ ये दो शब्द भी दो दो पदोंसे बने हुये हैं परन्तु इनके वाच्य अर्थ, ‘गधेरा सींग’, ‘घोड़ेका सींग’ अविद्यमान हैं। मोक्ष शब्द एकपदवाला होनेसे उसका वाच्य अर्थ भी घट, पट आदि पदार्थोंकी तरह विद्यमान है। इस प्रकार अनुमान प्रमाणण ‘मोक्ष’ है, यह बात सिद्ध होती है।

नरगङ्ग पणिंदि तस भव,

सन्ति अहक्खाय खड्डअसम्मते ।

मुक्खोऽणाहार केवल,—

दंतणनाणे न सेसेसु ॥ ३४ ॥

“इस गाथामें यह बतलाया गया है कि जीव किन मार्गणाओंके द्वारा मोक्ष प्राप्ता है।”

मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय, त्रसकाय, भवसिद्धिक संज्ञी, यथार्थ्यात्तचारित्र, क्षायिकसम्यक्त्व, अनाहार, केवलदर्शन और केवलज्ञान, इन दस मार्गणाओंके द्वारा मोक्ष होता है शेष मार्गणाओंके द्वारा नहीं ॥ ३४ ॥

सम्पूर्ण जीवद्रव्यका जिसके जरिये विचार किया जाय उसे ‘मार्गण’ कहते हैं।

मार्गणके मूलभूत चौदह भेद हैं और उत्तर भेद चासठ ।

( १ ) नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चारः गतियोंमेंसे सिर्फ मनुष्यगतिसे मोक्ष मिलता है; अन्य तीन गतियोंसे नहीं ।

( २ ) इन्द्रियमार्गणके पाँच भेद हैं, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । इनमेंसे पंचेन्द्रियद्वारमें मोक्ष होता है अर्थात् पाँचों इन्द्रियों पाया हुआ जीव मोक्ष जा सकता है ।

( ३ ) कायमार्गणके छह भेद हैं, पृथ्वीकाय, अप्साय, तेजःकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय । इनमेंसे त्रसकायके जीव मोक्ष जासकते हैं, अन्यकायके नहीं ।

( ४ ) भवसिद्धिकमार्गणाके दो भेद हैं, भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक । इनमेंसे भवसिद्धिक अर्थात् भव्य जीव मोक्ष जासकते हैं, अभव्य नहीं ।

( ५ ) संज्ञीमार्गणाके दो भेद हैं, संज्ञीमार्गणा और असंज्ञीमार्गणा । इनमेंसे संज्ञी जीव मोक्ष जासकते हैं, असंज्ञी नहीं ।

( ६ ) चारित्रमार्गणाके पाँच भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यातचारित्र । इनमेंसे यथाख्यात चारित्रका लाभ होनेपर जीव मोक्ष जाता है, अन्य चारित्रसे नहीं ।

( ७ ) सम्यक्त्वमार्गणाके पाँच भेद हैं, श्रौपशमिक, सास्वादन, क्षायोपशमिक, वेदक और क्षायिक । इनमेंसे क्षायिक सम्यक्त्वका लाभ होनेपर जीव मोक्ष जाता है, अन्य सम्यक्त्वसे नहीं ।

( ८ ) अनाहारमार्गणाके दो भेद हैं, अनाहारक और आहारक । इनमेंसे अनाहारक जीवको मोक्ष होता है, आहारक अर्थात् आहार करनेवालेको नहीं ।

( ९ ) ज्ञानमार्गणाके पाँच भेद हैं, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान । इनमेंसे केवलज्ञान होनेपर मोक्ष होता है, अन्य ज्ञानसे नहीं ।

( १० ) दर्शनमार्गणके चार भेद हैं; चक्रुदर्शन, अचक्रुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन । इनमें से केवलदर्शन होनेपर मोक्ष होता है; अन्य दर्शनसे नहीं ।

---

### द्रव्यप्रमाणे सिद्धाण्ड.

जीवद्रव्याणि हुंति णंताणि ।  
लोकस्स असंखिज्जे,  
भागे इक्को य सव्वे वि ॥ ३५ ॥

“इस गाथामें द्रव्यप्रमाणद्वार और जीवद्रव्यका वर्णन है ।”

द्रव्यप्रमाणद्वारके विचारसे सिद्धोंके जीवद्रव्य अनन्त हैं ।

जीवद्रव्यके विचारसे लोकाकाशके असंख्यातर्वें भागमें एक सिद्ध रहता है, उसी तरह सब सिद्ध भी, लोकाकाश के असंख्यातर्वें भागमें रहते हैं: परतु एक सिद्धसे व्याप्त जीवकी अपेक्षा, सब सिद्धोंसे व्याप्त जीवका परिमाण अधिक है ॥ ३५ ॥

---

फुलणा अहिआ कालो,  
इग सिद्ध पडुच्च साइओऽणंतो ।

पुडिवायाभावात्रो,

सिद्धार्थं अंतरं नत्थि ॥ ३६ ॥

“इस गाथामें स्पर्शना, काल और अन्तर, ये तीन सिद्धार्थ कहे हैं।”

( १ ) क्षेत्रसे सिद्ध जीवोंकी स्पर्शना अधिक है। एक सिद्धकी अपेक्षासे काल, सादि ( आदिसहित ) और अनन्त होता है। मिद्धगतिमें गये हुए जीवका पतन नहीं होता इसलिये अन्तर नहीं है ॥ ३६ ॥

जीव, कर्मसे मुक्त होकर जिस आकाशक्षेत्रमें रहते हैं, उसे सिद्धक्षेत्र कहते हैं। उसका ( सिद्धाकाशक्षेत्रका ) प्रमाण पैंतालीस लाख योजन लंबा चौड़ा है, उस क्षेत्रमें विद्यमान सिद्धोंके नीचे,ऊपर तथा चारों तरफ आकाश-प्रदेश लगे हुये हैं इसलिये क्षेत्रकी अपेक्षासे सिद्धजीवोंकी स्पर्शना अधिक है ।

( २. ) एक सिद्धको अपेक्षासे काल, सादि अनन्त है, जिस समय जीव मोक्ष गया, वह काल उस जीवके मोक्षका आदि है, फिर उस जीवका मोक्षगतिसे पतन नहीं होता इसलिये अनन्त है ।

सब सिद्धोंकी अपेक्षासे विचारें तो मोक्षकाल, अनादि अनन्त हैं क्योंकि यह नहीं कहा जासकता कि, अमुक जीव सबसे प्रथम मुक्त हुआ। अर्थात् उससे पहले कोई जीव मुक्त न था ।

( ३ ) अन्तर उसे कहते हैं; “यदि” सिद्ध “अपनी अवस्थासे पतित होकर दूसरो योनि धारण करनेके बाद फिर सिद्धगति प्राप्त करे;” सो हा नहीं सकता क्योंकि सिद्धगतिको छोड़कर अन्यगति पानेका कोई निमित्त नहीं है, इसलिये उक्त अन्तर मोक्षमें नहीं है। अथवा सिद्धोमें परस्पर क्षेत्रकृत अन्तर नहीं है क्योंकि जहाँ एक सिद्ध है, वहाँ वहुतसे सिद्ध है। कालकृत और क्षेत्रकृत, दोनों अन्तर सिद्धामे नहीं हैं।

क्षवजियाणमरांते,

भागे ते तेस दंसणं नाणं ।

खइए भावे परिणा,—

स्मिए अ पुण होइ जीवत्तं ॥३७॥

“इस गाथामे भागद्वार और भावद्वार कहते हैं।”

सब सिद्धोंके जीव, संसारी जीवोंका अनन्तवाँ भाग है। उन सिद्धोंका केवलज्ञान और केवलदर्शन, ज्ञायिक भावसे और जीवितव्य (जीना), पारिणामिक भावसे है ॥ ३७ ॥

( १ ) भागद्वार—भूत, भविष्यत् और वतमान इन तीनों कालोंमें यदि काई ज्ञानीसे सिद्धोंके बारेमें

पूछे तो, ज्ञानी यही उत्तर देगा कि, “असंख्यात निगोद हैं, प्रत्येक निगोदमें अनन्त जीव हैं, उनमेंसे एक निगोदका अनन्तवां भाग मोक्ष पा चुका,” इसे भावद्वार कहते हैं।

( २ ) भावद्वार—सिद्धोंके दो भाव होते हैं; ज्ञायिक और पारिणामिक। ज्ञायिक के नव भेद हैं और पारिणामिकके तीन। केवलज्ञान और केवलदर्शनसे अतिरिक्त सात ज्ञायिक भाव सिद्धको नहीं होते इसी प्रकार जोवितव्यको छोड़कर अन्य दो पारिणामिक भाव भी नहीं होते।

ज्ञायिक भाव ये हैं; दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व, चारित्र, केवलज्ञान और केवलदर्शन।

किसी कर्मके क्षयसे होनेवाले भावको ज्ञायिक भाव कहते हैं।

पारिणामिक भाव ये हैं; भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवितव्य।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य-रूप भावप्राण, सिद्ध जीवोंके हैं। पाँच इन्द्रियों, मनोबल, वचनबल, कायवल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये दस द्रव्यप्राण सिद्धोंको नहीं होते। उपशम क्षय और क्षयोपशमकी

अपेक्षा न रखनेवाले जीवके स्वभावको पारिणामिक भाव  
कहते हैं ।

---

थोड़ा नपुंसकिद्धा,  
थीनरसिद्धा कमेण संखण्णा ।  
इश्रु मुक्त्वत्तमेत्रं  
नव तत्ता लेसब्रो भणिआ ॥३८॥

“इस गाथामें अल्पबहुत्वद्वार कहा है ।”

नपुन्सकसिद्ध, कम हैं; उसमे स्त्रीसिद्ध, संख्यात गुण  
अधिक हैं; स्त्रीसिद्धसे पुरुषसिद्ध संख्यात गुण अधिक हैं ।  
यह मोक्षतत्त्व है । इस तरह नव तत्त्व संक्षेपसे कहे गये ॥३८॥

दो तरह के नपुन्सक होते हैं; जन्मसिद्ध और  
कृत्रिम । जन्मसिद्ध नपुन्सकोंको मोक्ष नहीं होता, कृत्रिम  
नपुन्सक एक समयमें उत्कृष्ट दस तक मोक्ष जाते हैं, स्त्रियाँ  
एकसमयमें उत्कृष्ट बीस तक मोक्ष जाती हैं और पुरुष एक  
समयमें उत्कृष्ट एकसौ आठ तक मोक्ष जाते हैं ।

---

जीवाइ नव पथत्थे,  
जो जाणाइ तस्त होइ समत्तं ।

भावेण सद्हहंतो,

अयाशामागेवि सम्मतं ॥३६॥

“इस गाथामे नवतत्त्व जाननेका फल कहते हैं।”

जो जीव, जीवादि नव तत्त्वोंको जानता है उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है। जीवादि पदार्थोंके नहीं जाननेवाले भी यदि अन्तःकरणसे ऐसी श्रद्धा रखते कि, “सर्वज्ञ वीतराग, जिनेश्वर भगवान्‌के कहे हुये नव तत्त्व सच हैं, अशङ्कनीय हैं,” तो समझना चाहिये कि उन्हें भी सम्यक्त्व है ॥ ३६ ॥

सव्वाइं जिरोसरभा,—

सिआइं वयणाइं नवहा हुति ।

इय बुद्धी जस्स मणे,

सम्मतं निरचलं तस्स ॥ ४० ॥

“इस गाथामें सम्यक्त्वाना स्वरूप कहा गया है।”

जिनेन्द्र भगवान्के कहे हुये सभी वचन अन्यथा (भूठ) नहीं है, ऐसी जिसकी बुद्धि हो, उसे निरचल सम्यक्त्व हुआ है, ऐसा पमझना चाहिये ॥ ४० ॥

आप, वीतराग, सर्वज्ञके उपदिष्ट पदार्थ सच हैं ऐसी दृढ़ श्रद्धाको (आत्माके परिणामविशेषको) सम्यक्त्व कहते हैं।

अंतोमुहुक्तमित्तं

पि फासिञ्च हुज्जे जेहिं समसत्तं ।

तेति अवद्वपुगल—,

परिअद्वो चत्र संसारो ॥ ४१ ॥

“इस गाथामें सम्यक्त्वलाभका फज कहते हैं ।”

जिनको एक अन्तमुहूर्त मात्र भी सम्यक्त्वका स्पर्श हुआ हो, उनका अर्धपुद्दलपरावर्त संसारबाकी रहा है ॥ ४१ ॥

सिर्फ अन्तमुहूर्त तक, जिस जीवका परिणाम, सम्यक्त्वरूप होगया हो, उस जीवको अर्धपुद्दलपरावर्त तक संसारमें भ्रमण करना पड़ेगा, बाद अवश्य भोक्त मिलेगा ।

यह कालपरिमाण उस जीवके लिये कहा गया है जिसने बहुत आशातना की हो, या करनेवाला हो शुद्ध सम्यक्त्वका आराधन करनेवाला जीव तो, उसी जन्ममें, कोई जीव तीमरे जन्ममें, कोई सातवें जन्ममें, कोई आठवें जन्ममें इस तरह शीघ्र मुक्ति पाता है ।

उस्त्वपिण्डो अणंता,

पुगलपरिअद्वो मुणोअच्चो ।

तेरांता तोअच्छा,

अणागयच्छा अणांतगुणा ॥ ४२ ॥

“इस गाथामें पुद्गलपरावर्तनका स्वरूप कहा है।”

अनन्त उत्सर्पिणी और अनन्त अवसर्पिणी वीत जानेपर एक ‘पुद्गलपरावर्तन’ होता है, इस तरहके अनन्त ‘पुद्गलपरावर्तन’ पहले हो चुके और अनन्तगुण आगे होंगे ॥ ४२ ॥

जिण-अजिण-तिन्थ-उतित्था,

गिहि-अन्न-सज्जिंग थो-नर-नपुंसा ।

पत्तेय-सचंबुद्धा,

बुद्धवोहिकउणिका य ॥ ४३ ॥

“इस गाथामें सिद्धोके पंदरड भेड़ कहे गये हैं।”

(१) तीर्थङ्करसिद्ध, (२) अतीर्थङ्करसिद्ध, (३) तीर्थ-सिद्ध, (४) अतीर्थसिद्ध, (५) गृहस्थलिङ्गसिद्ध, (६) अन्यलिङ्गसिद्ध, (७) स्वलिङ्गसिद्ध, (८) स्त्रीसिद्ध, (९) पुरुषसिद्ध, (१०) नपुरसकसिद्ध, (११) प्रत्येकबुद्धसिद्ध, (१२) स्वयंबुद्धसिद्ध, (१३) बुद्धवोधितसिद्ध, (१४) एकसिद्ध और (१५) अनेकसिद्ध; ये पंदरह सिद्धोके भेद हैं ॥ ४३ ॥

- (१) तीर्थङ्कर होकर जिन्होंने मुक्ति पाई, वे जिन-तीर्थङ्कर सिद्ध । ऋषभ, महावीर आदि ।
- (२) सामान्य केवली, अजिन-तीर्थङ्करसिद्ध कहलाते हैं, जैसे पुण्डरीक आदि ।
- (३) चतुर्विध संघकी स्थापना करनेके बाद जिन्होंने मुक्ति पाई वे 'तीर्थसिद्ध,' जैसे गौतम आदि गणधर ।
- (४) चतुर्विध संघकी स्थापना करनेके पहले जिन्होंने मुक्ति पाई वे 'अतीर्थसिद्ध,' जैसे मरुदेवी आदि ।
- (५) गृहस्थके वेषमें जिन्होंने मुक्ति पाई वे 'गृहस्थ-लिङ्गसिद्ध,' जैसे 'मरुदेवी माता' आदि ।
- (६) सन्न्यासी आदि अन्यवेषधारी साधुओंने मुक्ति पाई वे 'अन्यलिङ्गसिद्ध,' जैसे 'बल्कलचीरी' आदि ।
- (७) रजोहरण आदि अपने वेषमें रहकर जिन्होंने मुक्ति पाई वे 'स्वलिङ्गसिद्ध,' जैसे जैनवेषधारी साधु ।
- (८) 'स्त्रीलिङ्गसिद्ध,' जैसे चन्दनवाला आदि ।
- (९) 'पुरुषलिंगसिद्ध,' जैसे गौतम आदि ।
- (१०) 'नपुन्सकलिंगसिद्ध,' जैसे भीष्म आदि ।

(११) किसी अनित्य पदार्थको 'देखकर' विचार करते करते जिन्हें वोध हुआ वाद केवलज्ञान प्राप्त हुआ और सिद्ध हुए वे 'प्रत्येकबुद्ध,' जैसे करकरडू राजा आदि।

(१२) 'स्वयंबुद्धसिद्ध';—विना उपदेशके, पूर्वजन्मके संस्कार और बुद्ध होनेसे जिन्हें ज्ञान हुआ और मिद्ध हुए वे। जैसे कपिल आदि।

(१३) गुरुके उपदेशसे ज्ञानी होकर जो सिद्ध हुये, वे, 'बुद्धधोधित सिद्ध'।

(१४) एक समयमें एक ही मोक्ष जानेवाले 'एकसिद्ध', जैसे महावीर स्वामी आदि।

(१५) एक समयमें अनेकमुक्त होनेवाले 'अनेकसिद्ध' कहलाते हैं, जैसे ऋषभदेव आदि।

❀ समाप्त ❀

# परिशिष्ट ।

लक्ष्मण

नवतत्त्वकी दूसरी प्रतिमें १६ गांधायें अधिक हैं—  
जो यहाँ दी जाती हैं !

प्राद्या७।११४।२६।३दा३हा४।०४।१।४।२।४।४।५।५।६  
५।७।५।८।५।६।

“जीवका लक्षण”

नाणं च दंसणं चेव,  
चरित्ते च ततो तहा ।  
वीरियं उवआगो आ,  
एत्रं जीवस्त लक्षणं ॥ १ ॥

ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये जीवके लक्षण हैं— अर्थात् ये, जीवको छोड़कर किसी दूसरे पदार्थमें नहीं रहते ॥ १ ॥

(१) पाँच प्रकारका ज्ञान और तीन प्रकारका अज्ञान; ये दोनों ज्ञानशब्दसे लिये जाते हैं ।

ज्ञानके पाँच भेद ये हैं:—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान ।

अज्ञानके तीन भेद ये हैं;—मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगज्ञान । इनको क्रमसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी कहते हैं ।

जिस जीवमें ज्ञान हो, उसे सम्यग्वद्धि और जिसमें अज्ञान हो उसे मिथ्यावृद्धि कहते हैं ।

(२) दर्शनके चार भेद हैं;—चक्रुदर्शन, अवकुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ।

(३) चारित्रके दो भेद हैं;—भावचारित्र और द्रव्यचारित्र । भावचारित्रके पाँच भेद हैं;—सामायिक, छेदोपस्थापनीय, पारहारविशुद्धि, स्वस्मसम्पराय और यथाख्यात ।

क्रियाके निरोधको द्रव्यचारित्र कहते हैं ।

(४) तपके दो भेद हैं;—द्रव्यतप और भावतप ।

द्रव्यतपके वारह भेद हैं, वे २८-२९-३० वीं गाथाओंमें कहे गये हैं ।

इच्छाके निरोधको भावतप कहते हैं ।

(५) सामर्थ्य, वैल अयवा पराक्रमफो वीर्य कहते हैं ।

( ६ ) उपयोगके दो भेद हैं;—साकार और निराकार । साकार उपयोगको ज्ञान कहते हैं, और निराकार उपयोगका दर्शन ।

“छह पर्याप्तियोंके नाम, और वे किन जीवोंको कितनी होती हैं,  
सो कहते हैं ।”

**आहार-सरीर-इन्द्रि—,**

पञ्चजन्ती आणपाण भास-मणे ।  
चउ पैच पंच छ पिंच,  
इग-विगलाऽसन्नि-सन्नीण ॥२॥

आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासो-  
च्छ्वासपर्याप्ति और मनःपर्याप्ति, ये छह पर्याप्तियाँ हैं ।  
एकेन्द्रिय जीवको चार; विकलंन्द्रिय तथा असंज्ञी पञ्चे-  
न्द्रियको पाँच, और संज्ञीपञ्चेन्द्रियको छह पर्याप्तियाँ  
होती हैं ॥ २ ॥ पर्याप्तियोंका अर्थ चौथी गाथामें देख  
लेवें ।

“द्रव्यप्राणोंके दस भेद, और वे किन जीवोंको कितने हैं,  
सो कहते हैं ।”

**परिंदिष्म-त्तिव्लूसा—,**

साऊ दस पाणि चउ छ सग अटु ।

इग-दु-ति-चउरिंदीणं,

असन्नि-सन्नीण नव दस य ॥३॥

पाँच इन्द्रियाँ, तीन वल, श्वासोच्छ्वास और आयु,  
ये दस प्राण कहलाते हैं। एकेन्द्रियको चार प्राण;  
द्वीन्द्रियको छह; त्रीन्द्रियको सात; चतुरिन्द्रियको आठ;  
असंज्ञी पञ्चेन्द्रियको नव और संज्ञी पञ्चेन्द्रियको दस  
प्राण होते हैं ॥ ३ ॥

( १ ) एकेन्द्रियके चार प्राण ये हैं—त्वगिन्द्रिय,  
श्वासोच्छ्वास, कायवल और आयु ।

( २ ) एकेन्द्रियजीवकी अपेक्षा, द्वीन्द्रिय जीवके  
रसनेन्द्रिय और वचनवल—ये दो प्राण अधिक हैं ।

( ३ ) द्वीन्द्रियकी अपेक्षा, त्रीन्द्रिय जीवको प्राणे-  
न्द्रियप्राण अधिक है ।

( ४ ) त्रीन्द्रियकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय जीवको  
चतुरिन्द्रिय—यह एक प्राण अधिक है ।

( ५ ) चतुरिन्द्रियकी अपेक्षा, असंज्ञी पञ्चेन्द्रियको  
ओत्रेन्द्रिय—यह एक प्राण अधिक है ।

( ६ ) असंज्ञी पञ्चेन्द्रियकी अपेक्षा, संज्ञी पञ्चे-  
न्द्रियको मनोवल—यह एक प्राण अधिक है ।

असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके दो भेद हैं—मनुष्य और  
तिर्यक् ।

इनको सम्मूच्छिम कहते हैं। सम्मूच्छिम मनुष्यको वचनबल नहीं होता इसलिये उसको अपठ प्राण समझना चाहिये। वह यदि श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिको पूर्ण किये बिना ही मर जाय तो सात प्राण समझना।

नीचे लिखे हुये श्लोकमें भी दस प्राणोंका वर्णन है—

पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं वलं च,  
उच्छ्वासनिःश्वासमथान्यदायुः ।  
प्राणा देशैते भगवद्ग्रहक्ताः,  
तेषां वियोजीकरणं तु हिसा ॥ १ ॥

पॉच इन्द्रियां, तीन वल—मनोवल, वचनबल और कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये दस प्राण, भगवानने कहे हैं; जो वको इन प्राणोंसे जुदा करना, हिसा कहलाती है।

जीवके ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणोंको “भावप्राण” कहते हैं।

“पुद्गलका लक्षण”

सहंधयार-उज्जोश—

यभा-छाया-स्तत्वे इथ ।

वन्न गंध रसा फासा,

पुगलाण तु लक्खण ॥ ४ ॥

शब्द, अध्यकार, रत्नादिका उद्योत, चन्द्रादिकी प्रभा, छाया और सूर्यादिका आतप, ये पुङ्गल हैं, अथवा जिसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हो; उसे पुङ्गल समझना चाहिये ॥ ४ ॥

पूरण—गलन, जिसका स्वभाव हो, उसे पुद्गल कहते हैं—अर्थात् जो इकट्ठे हो कर मिल जाते हैं और फिर जुदे जुदे हो जाते हैं, वे पुद्गल कहलाते हैं ।

॥०॥

“छह द्रव्योंका विशेष स्वरूप कहते हैं ।”

परिणामि जीव मुक्तं,

सपएसा एग खित्त किरिआय ।

गिर्च्चं कारण कत्ता,

सद्वगय इयरअप्पवेसे ॥ ५ ॥

जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल—ये छह द्रव्य हैं । इनमेंसे जीव और पुद्गल, ये दो परिणामी हैं; जीव, चेतन द्रव्य हैं; पुद्गल मूर्त हैं; जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच द्रव्य प्रदेशसहि हैं; धर्म, अधर्म और

आकाश—ये तीन, एक एक हैं; आकाश क्षेत्र है; जीव और पुद्गल सक्रिय हैं; धर्म, अधर्म, आकाश और काल नित्य हैं; धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, कारण हैं: जीव कर्ता है; आकाश सर्वगत—अर्थात् लोक-अलोक व्यापी है, और छहों द्रव्य प्रवेशरहित हैं—अर्थात् एक द्रव्य, दूसरे द्रव्यका स्वरूप नहीं धारण करता ॥ ५ ॥

विशेष—परिणाम दो प्रकारके होते हैं,—स्वभाव-परिणाम और विभावपरिणाम । अन्यद्रव्य के निमित्तसे होनेवाला विरूप परिणाम, विभाव परिणाम कहलाता है, जैसे—जीवके निमित्तसे पुद्गल, कर्मके स्वरूपमें बदल जाते हैं, और पुद्गलके निमित्तसे जीवका ज्ञान, अज्ञानके रूपमें बदल जाता है विभावपरिणामकी अपेक्षासे जीव और पुद्गल परिणामी हैं, अन्य द्रव्य नहीं क्योंकि उनमें स्वभावपरिणाम ही होता है, विभावपरिणाम नहीं होता ।

द्रव्यप्राण और भावप्राणोंको जीवद्रव्य ही धारण करता है । अतएव अन्य पांच द्रव्य, निर्जीव हैं ।

इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जानेकी योग्यता जिस द्रव्यमें हो, उसे मूर्त समझना चाहिये । अथवा, जिसमें

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हों उसे मूर्त कहते हैं। पुद्गल-द्रव्यको छोड़, अन्य पाँच द्रव्य अमूर्त हैं।


काल द्रव्यको छोड़, अन्य पाँच द्रव्य, प्रदेशवाले हैं। जीव, धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय के—प्रत्येक क असंख्य प्रदेश हैं। सामान्यरूपसे आकाशके अनन्त प्रदेश हैं परन्तु लोकाकाशके असंख्य प्रदेश हैं। पुद्गल-द्रव्य संख्यात प्रदेशोंवाला, असंख्यात प्रदेशोंवाला और अनन्त प्रदेशोंवाला होता है।

आकाश द्रव्य, अन्य द्रव्योंको अवकाश देता है, इसलिये वही एक द्वेष कहलाता है।

एक जगहसे दूसरी जगह जाना यह क्रिया है। जीव और पुद्गलको छोड़ अन्य द्रव्योंमें क्रिया नहीं है इसलिये जीव और पुद्गल सक्रिय, और अन्य द्रव्य निष्क्रिय कहलाते हैं।

धर्म, अधर्म, आकाश और काल—इन चार द्रव्योंमें विभावपरिणाम नहीं होता इसलिये ये नित्य और जीव तथा पुद्गलमें विभावपरिणाम होता है इसलिये ये दोनों अनित्य हैं। नयवादको लेकर जीवको अनित्य कहा है, अन्यथा, जैनसिद्धान्त सब द्रव्योंको नित्यानित्य कहता है।

जीवके शरीर—इन्द्रिय आदिके बननेमें कारण, पुङ्गल है; जीवके गमनमें कारण, धर्मस्थितकाय है; जीदके स्थिर होनेमें कारण, अधर्मस्थितकाय है; जीवकी वर्तनामें कारण, काल है। इसलिये ये पाँचों द्रव्य, कारण हैं; और जीव-द्रव्य अकारण है, क्योंकि जीवसे उन पाँचों द्रव्योंका कोई उपकार नहीं होता।



“पाच समितियोंके और तीन गुप्तियोंके नाम ।”

इरिया भासेसणादाणे,  
उच्चारे समर्झिषु अ ।  
मणगुत्ति वयगुत्ति,  
कायगुत्ति तहेव य ॥ ६ ॥

ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदान-निक्षेपसमिति और पारिष्ठापनिकासमिति; ये पाँच समितियाँ हैं, मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, ये तीन गुप्तियाँ हैं ॥ ६ ॥

सम्यक् चेष्टाको समिति कहते हैं। मन, वचन और कायाके अशुभ व्यापारोंका रोकना, गुप्ति कहलाता है।

समिर्ति और गुप्ति, “अष्ट-प्रवचन-माता” कहलाती हैं क्योंकि ये, आत्माके चारित्रिगुणका पालनपोषण करती हैं।

---

“आठ कर्मोंका—प्रत्येकका—स्वभाव, दृष्टान्तोंके द्वारा दिखलाते हैं।”

पट-पडिहार-असि-मज्ज,  
हड-चित्त-कुलाल-भंडगारीणं ।  
जह एएसि भावा,  
कस्माण वि जाण तह भावा ॥७॥

पट, प्रतिहारी, असि, मद्य, कारागृह, चित्रकार, कुलाल और भण्डारी इनके स्वभावके सदृश कर्मोंका स्वभाव है ॥ ७ ॥

( १ ) आँखपर बाँधी हुई पट्टीके सदृश, ज्ञानावरणीय कर्मका स्वभाव है । वह आत्माके अनन्त ज्ञानको रोक देता है ।

( २ ) द्वारपालके समान, दर्शनावरणीय कर्मका स्वभाव है । जिस प्रकार राजदर्शन चाहनेवालेको द्वारपाल रोकता है, उसी तरह आत्माके दर्शनगुणको दर्शनावरणीय कर्म रोक देता है ।

( ३ ) वेदनीय कर्मका स्वभाव, शहद लगी हुई तलवारकी धारके सद्वश है। यह कर्म आत्माके 'अव्यावध' गुणको रोक देता है। तलवारकी धारमें लगे हुये शहदको चाटनेके समान, सातवेदनीय कर्मका विपाक है। खड़गधारामें जीभके कटनेपर, अनुभवमें आती हुई पीड़िके समान, असातवेदनीय कर्मका विपाक है। सांसारिक सुख, दुःखसे मिला हुआ है इसलिये निश्चय-दृष्टिसे, सिवा आत्मसुखके, पुद्गलनिमित्तक सुख, दुःख-रूप ही समझा जाता है।

( ४ ) मध्यके नशेके समान, मोहनीय कर्मका स्वभाव है। यह आत्माके सम्यग्दर्शन और सन्यक्त्वारित्र गुणको ढँक देता है।

जैसे मध्यके नशेमें चूर, अपना हित-अहित नहीं समझ सकता, इसी प्रकार मोहनीय कर्मके उदयसे आत्मा को धर्म अधर्मका भान नहीं रहता।

( ५ ) आयुकर्मका स्वभाव, कागगृहके समान है। यह कर्म, आत्माके 'अविनाशित्व' धर्मको रोक देता है। जिस प्रकार जेलमें पड़ा हुआ मनुष्य, उससे निकलना चाहता है पर सजा पूर्ण हुये बिना नहीं निकल सकता,


उसी तरह नरकादि योनिमें पड़ा हुआ जीव, आयु पूर्ण किये विना, उन योनियोंसे नहीं छूट सकता ।

( ६ ) नामकर्मका स्वभाव, चित्रकार जैसा है । यह कर्म, आत्माके 'अरूपित्व' धर्मको रोकता है । जैसे चितेरा, भले-बुरे इनेक प्रकारके चित्र बनाता है, उसी प्रकार नामकर्म, आत्माको भले बुरे नाना प्रकारके देव-मनुष्य-भारकतिर्यश्च बना देता है ।

( ७ ) कुम्भार जैसा गोत्र कर्म है । यह कर्म आत्मा के 'अगुरुलघु' गुणको रोकता है ।


कुम्भार धी रखनेके घड़े बनाता है और मध्य रखनेके भी । धोका घड़ा अच्छा समझा जाता है और मध्यका बुरा । इसी तरह गोत्रकर्मके उदयसे जीव ऊँच-नीच कुलमें जन्म लेता है ।

( ८ ) अन्तराय कर्मका स्वभाव भण्डारी जैसा है । यह कर्म जीवके वीर्यगुणको तथा दान आदि लिंगियोंको रोकता है । जैसे मालिक इच्छा होते हुये भी, दुष्ट भण्डारीके कारण दान आदि नहीं कर सकता, इसी प्रकार अन्तराय कर्मके उदयसे जीव दान आदि नहीं कर सकता, न अपनी शक्तिका विकास कर सकता है ।



“आठ कर्मोंके नाम और उनकी उत्तर प्रकृतियाँ।  
 इह नाण—दंसणावरण—,  
 वेय-मोहा४५३—नाम—गोश्राणि ।  
 विश्वं च पण—नव—दुअ—,  
 दुवीस—चउ—तिसय—दु—पणविहं ॥८॥

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय,  
 आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ कर्म हैं।  
 ज्ञानावरणीयकी उत्तर प्रकृतियाँ पाँच हैं; दर्शनावरणीय  
 की नव; वेदनीयकी दो; मोहनीयकी अद्वाईम; आयुकी  
 चार; नामकर्मकी एकसौ तीन; गोत्रकी दो; और अन्त-  
 रायको पाँच उत्तर प्रकृतिया हैं ॥ = ॥



“आठ कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ।”  
 नाणे अ दंसणावरणे,  
 वेशणीए चेव अंकराए अ ।  
 तीसं कोडाकोडी,  
 अयराणं ठिइ अ उक्कोसा ॥९॥  
 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय

इन चार कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति—अर्थात् अधिकसे अधिक स्थिति, तीस क्रोडाक्रोड़ी सागरोपमकी है ॥ ६ ॥

---

सत्तरि कोडाकोडी,  
मोहणीए वीस नाम-गोपसु ।  
तित्तोसं आयराइं,  
आउटिंडबंध उक्कोसा ॥ १० ॥

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर ७० क्रोडाक्रोड़ी सागरोपमकी है । नामकर्म और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति वीस क्रोडाक्रोड़ी सागरोपमकी है । आयु कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति, तेतोस सागरोपमकी है ॥ १० ॥

---

“आठ कर्मोंको जघन्य स्थिति कहते हैं ।”

वारस मुहुत्त जहन्ना,  
वेयणीए अट्ट नाम—गोपसु ।  
सेसाणंतमुहुत्तं,  
एयं बंधटिंडमाणं ॥ ११ ॥

वेदनीय कर्मकी जघन्यस्थिति—अर्थात् कर्मसे कर्म स्थिति, वारह मुहूर्चकी है । नामकर्म और गोत्र कर्मकी

जघन्यस्थिति आठ मुहूर्चकी है। शेष कर्मोंकी-अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, आयु और अन्तराय इन पाँच कर्मोंकी जघन्यस्थिति अन्तमुहूर्तकी है ॥११॥

“चौदह मार्गणाओंके नाम ।”

गइ इंदिएय काष,  
जोए वेए कसाय नाणे थ ।  
संजम दंसण लेसा,  
भव सम्मे सन्निं आहारे ॥१२॥

१ गतिमार्गणा, २ इन्द्रियमार्गणा, ३ कायमार्गणा,  
४ योगमार्गणा, ५ वेदमार्गणा, ६ कषायमार्गणा,  
७ ज्ञानमार्गणा, ८ संयममार्गणा, ९ दर्शनमार्गणा, १०  
लेश्यमार्गणा, ११ भव्यमार्गणा, १२ सम्यक्त्वमार्गणा,  
१३ संज्ञीमार्गणा और १४ आहारमार्गणा ॥ १२ ॥

मार्गणाका अथ और प्रत्येक मार्गणाके भेद, चौतीसवीं गाथाके अर्थमें कहे गये हैं ।

“सिद्ध जीवोंके भेद तेतालीसर्वाँ गाथामें कह चुके, उनके उदाहरण चार गाथाओंकेद्वारा कहे जाते हैं।”

जिणसिद्धा य अरिहंता,

अजिणसिद्धा य पुँडरिआ पमुहा ।

गणहारि तिथसिद्धा,

अतित्थसिद्धा य मरुदेवी ॥ १३ ॥

ऋषभ आदि तीर्थाङ्कर, ‘जिनसिद्ध’ कहलाते हैं, और पुण्डरीक वगैरह ‘अजिनसिद्ध’। गणधर ‘तीर्थसिद्ध’ कहलाते हैं और मरुदेवी ‘अतीर्थसिद्ध’ ॥ १३ ॥

गिहिलिंगसिद्ध भरहो,

वक्कलचीरी य अन्यलिंगरिम् ।

साहू सलिंगसिद्धा,

थीसिद्धा चंदणापमुहाँ ॥ १४ ॥

भरत चक्रवर्ती ‘गृहस्थलिङ्ग सिद्ध’; वक्कलचीरी ‘अन्यलिङ्गसिद्ध’; जैनसाधु ‘स्वलिङ्गसिद्ध’; चन्दनवाला आदि ‘खीसिद्ध’ ॥ १४ ॥



पुंसिद्धा गोयमाई,  
गांगेयपमुह नपुंसया सिद्धा ।

पत्तेय-सयंबुद्धा,  
भणिया करकंडु-कविलाई ॥१५॥

गौतम आदि 'पुरुषलिङ्गसिद्ध' ! भीष्म आदि 'नपु-  
न्सकलिङ्गसिद्ध' ! करकंडु राजा 'प्रत्येकबुद्धसिद्ध' कपिल  
आदि 'स्वयंबुद्ध' ॥ १५ ॥

तह बुद्धबोहि गुरुबो—,  
हिया य इगसनय एकसिद्धा य ।  
इगसनये वि अणेगा,  
सिद्धा ते णेगसिद्धा य ॥ १६ ॥

गुरुके उपदेशसे ज्ञानी होकर जो पुक्त हुए वे,  
'बुद्धबोधित सिद्ध' ! महावीर स्वामीकी तरह, एक समयमें  
एक ही मोक्ष गया, वह 'एकसमयसिद्ध' ! ऋषभदेव  
भगवान्‌के सदृश, एक समयमें अनेक मुक्त हुये, वे  
'अनेकसिद्ध' ॥ १६ ॥

खुलासेके लिये ४३ वीं गाथाको देखें ।

प्रकाशक—

मंत्री—श्रीआत्मानन्द—जैन-पुस्तक-प्रचारक-भएडल  
रोशनमुहल्ला-आगरा।

